



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25—अगस्त 31, 2012 (भाद्रपद 3, 1934)  
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25—AUGUST 31, 2012 (BHADRA 3, 1934)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्र. ए. एण्ड एस.-3/2012-13--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के निदेशक मंडल और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा भारत सरकार के अनुमोदन से श्री शरद शर्मा को कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

प्रतीप चौधरी

अध्यक्ष

## दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

कोलकाता-700071, दिनांक 24 अप्रैल 2012

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

3 ईसीए/4/1/2011-2012--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद्) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा 20 उप धारा (1) (c) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम फीस न देने के कारण 01 अक्टूबर 2011 से हटा दिया है। उनके नाम निम्नलिखित हैं।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान	क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं स्थान
1.	001603	मि. गुप्ता मदन मोहन कोलकाता	14.	006201	मि. पाल सुर्जया कान्ता कोलकाता
2.	002415	मि. पांडे श्री नाथ हावड़ा	15.	006691	मि. दे रघुनाथ कोलकाता
3.	002767	मि. चौधरी अनन्तो ब्रतो कोलकाता	16.	006826	मि. मल्लिक शान्ति राम कोलकाता
4.	002903	मि. मनीषी कुमार देब कोलकाता	17.	006906	मि. सेन गुप्ता तपन कुमार कोलकाता
5.	003079	मि. चटर्जी अजित कुमार लंडन	18.	006991	मि. शर्मा पुरुषोत्तम कोलकाता
6.	003497	मि. पाल सुधीर चन्द्रा कोलकाता	19.	007116	मि. सरकार विमल चन्द्रा कोलकाता
7.	003948	मि. अरोरा रतन लाल कोलकाता	20.	007483	मि. सेन रविन्द्र नारायण कोलकाता
8.	004381	मि. सेन अरुण कुमार केन्ट	21.	007494	मि. दे अजीत कुमार लंडन
9.	004602	मि. बनर्जी सुबल चन्द्रा कोलकाता	22.	007956	मि. चक्रवर्ती सिधेश्वर कोलकाता
10.	004668	मि. साहा बिजय कृष्णा कोलकाता	23.	008758	मि. घोष असित कुमार कोलकाता
11.	005308	मि. महेसरिया श्याम सुन्दर बेंगकोक	24.	008856	मि. आसुतोष सेन कोलकाता
12.	005376	मि. बासु हीरालाल कोलकाता	25.	010162	मि. आभाष चन्द्रा भट्टाचार्या कोलकाता
13.	005388	मि. साहा उपेन्द्र चन्द्रा कोलकाता	26.	011079	मि. कसेरा सुशील कुमार कोलकाता

27.	011353	मि. दत्ता गुप्ता अमलेन्दु कोलकाता	46.	050052	मि. अंजन सरकार कोलकाता
28.	012061	मि. अगरवाल दयानन्द कोलकाता	47.	050167	मि. श्यामल बरन चट्टराज कोलकाता
29.	012235	मि. अगरवाल मदन लाल कोलकाता	48.	050407	मि. जैन दौलत राम कोलकाता
30.	012676	मि. गांगुली बी के जलपाइगुड़ी	49.	050568	मि. काहाली अमिताव गुवाहाटी
31.	013724	मि. दास सुभेन्दु बिकास कोलकाता	50.	050569	सीए. बिपलब कुमार साहा कोलकाता
32.	015325	मि. गोपालका सुरेश कुमार कोलकाता	51.	050570	मि. मृनाल कान्ती दास कोलकाता
33.	015718	मि. जयेदका विजय कृष्ण कोलकाता	52.	050578	मि. बन्धोपाध्याय बिमल कुमार कोलकाता
34.	015739	मि. सोम मिहीर कुमार कोपेट	53.	050592	मि. मित्रा सुप्रियो कोलकाता
35.	016082	मि. रंजन चक्रवर्ती कोलकाता	54.	050718	मि. राय प्रसान्त कुमार गेबरोन
36.	016454	मि. भलोटिया जगमोहन कोलकाता	55.	050721	मि. तिवारी मुकेश कुमार कोलकाता
37.	017061	मि. गोविन्द कनोडिया कोलकाता	56.	050945	मि. बन्धोपाध्याय बिपलब कान्ती कोलकाता
38.	017067	मि. श्यामल कुमार मुखर्जी कोलकाता	57.	050952	मि. समर बोस कोलकाता
39.	017234	मि. दास हरलाल श्रीरामपुर	58.	051088	मि. दत्त सुबीर कोलकाता
40.	017987	मि. गुहा राय सोमनाथ कोलकाता	59.	051269	मि. चक्रवर्ती अरिन्दम कोलकाता
41.	022391	मि. श्रीनिवासन ए एल आगरतला	60.	051310	मि. दास सतराजीत कोलकाता
42.	024279	मिस. देब उमा कोलकाता	61.	051396	मि. लाहिरी अरूप कुमार कोलकाता
43.	040022	मिस. इसनाइल मेहर अफरोज दाउद कोलकाता	62.	051418	मि. राय सुहरित कोलकाता
44.	044821	मि. दे आसिस कुमार कोलकाता	63.	051488	मि. घोष ब्रोतीन्द्र नाथ ऑटारियो
45.	050027	मि. रजत दासगुप्ता कोलकाता	64.	051507	मि. चौधरी सुगतो कोलकाता

65.	051815	मि. गोम्स क्लेमेन्ट कोलकाता	84.	053018	मि. शर्मा चन्द्रा प्रकाश कोलकाता
66.	051934	ड०. स्वपन कान्त बोस चौधरी कोलकाता	85.	053056	मि. पेरेयरा जेफरी कोलकाता
67.	051969	मि. ओहरी तरुण दुबई	86.	053167	मि. दत्ता बिश्वजीत कोलकाता
68.	052097	ड०. सेनगुप्ता प्रबल कुमार ऑटारियो	87.	053169	मि. श्री मोहन हमीरबासीया कोलकाता
69.	052101	मि. गोयेल सुशील कुमार पोर्ट ब्लेयर	88.	053187	मि. प्रूस्ति एस मनमथो राव अंगुल
70.	052109	मि. कपूर शिव राज कोलकाता	89.	053228	मि. केडिया बिष्णु कुमार कोलकाता
71.	052121	मि. बनर्जी सोमसुभरो कोलकाता	90.	053245	मि. मिहीर चटर्जी कोलकाता
72.	052144	मि. दत्ता पार्थो कोलकाता	91.	053278	मि. ठकोरे पुरनेन्दु आर कोलकाता
73.	052202	मि. दास श्यामल कुमार शांतिपुर	92.	053372	मि. अग्रवाल प्रकाश कुमार कोलकाता
74.	052345	मि. झुनझुनवाला राजेश कोलकाता	93.	053502	मि. रमेश एस जोर्जिया
75.	052387	मि. पतोडिया संजय कुमार कोलकाता	94.	053507	मि. रोय किशोर चन्द्रा कोलकाता
76.	052393	मि. साह कृष्णा प्रसाद आगरतला	95.	053522	मि. बासु सैबाल मस्कट
77.	052400	मि. चटर्जी भार्गव कोलकाता	96.	053539	मि. निर्मल कुमार लुनावत कोलकाता
78.	052437	मि. धार बिश्वनाथ कोलकाता	97.	053587	मि. अगरवाल विजय कुमार कोलकाता
79.	052457	मि. अग्रवाल निरंजन प्रसाद कोलकाता	98.	053890	मिस. रमन नन्दिता न्यु साउथ वेल्स
80.	052498	मि. कल्याण बिश्वास कोलकाता	99.	054044	मि. सबीह अहमद कोलकाता
81.	052777	मि. राजेश कुमार झावर कोलकाता	100.	054048	मि. बेहरा किशोर चन्द्रा भुवनेश्वर
82.	052810	मि. जैन श्रवण कुमार कोलकाता	101.	054072	मि. बोस अमित दुबई
83.	052974	मि. पांडा बिबेकानन्द कोलकाता	102.	054079	मि. दास गौरांगो कोलकाता

103.	054172	मि. अगरवाल अशोक कुमार हावड़ा	122.	054886	मि. खंडेलवाल देवेन्द्र प्रकाश कोलकाता
104.	054194	मि. नारायण रमेश कोलकाता	123.	054956	मि. टंडन रोहित सिडनी
105.	054233	मि. अगरवाल अजय हावड़ा	124.	054961	मि. चांद रतन आचार्य कोलकाता
106.	054262	मि. वेंकेटरमानी विश्वनाथन कोलकाता	125.	054995	मि. मोदानी संजय कोलकाता
107.	054266	मि. खेतान आनन्द कुमार कोलकाता	126.	055063	मिस. उपमा मुखर्जी कोलकाता
108.	054270	मि. कुमार मन मोहन कोलकाता	127.	055065	मि. चक्रवर्ती रंजीत कोलकाता
109.	054301	मि. कनोरिया सुनील कोलकाता	128.	055119	मि. सुरेका सुनील कोलकाता
110.	054321	मि. साहु सुरेन्द्र कुमार जगतसिंहपुर	129.	055125	मि. ढनढनिया सुनील कुमार हावड़ा
111.	054324	मि. बहेती सुभास चन्द्रा कोलकाता	130.	055133	मि. बिहानी चन्द्र किशोर कोलकाता
112.	054327	मि. बानी प्रसाद आचार्य भुवनेश्वर	131.	055179	मि. लक्ष्मण नारायण बेनिन
113.	054358	मि. अग्रवाल कैलाश कुमार कोलकाता	132.	055290	मि. मित्रा अभिजीत कोलकाता
114.	054446	मि. साहु अजया कुमार भुवनेश्वर	133.	055505	मि. वैधाराजन वी कोलकाता
115.	054456	मि. हलान सुशील कुमार कोलकाता	134.	055533	मि. नीरज गुप्ता कोलकाता
116.	054481	मि. उमेश कुमार कोलकाता	135.	055553	मि. सेनगुप्ता तरुण कोलकाता
117.	054549	मि. गुप्ता रोहित मेक्सिको	136.	055724	मि. चौधरी सुब्रता गुवाहाटी
118.	054669	मि. संजय घोष कोलकाता	137.	055760	मि. चट्टोपाध्याय सौरभ कोलकाता
119.	054755	मि. अगरवाल मनोज कुमार कोलकाता	138.	055817	मि. जोयकेश पोद्दार कोलकाता
120.	054801	मि. भोष सौमित्रा कोलकाता	139.	055866	मि. सेन संजोय कोलकाता
121.	054804	मि. नागी परवीन सिंह हावड़ा	140.	055880	मि. दास पृथ्वी रंजन कोलकाता

141.	055926	मि. विश्वनाथ चक्रवर्ती यलोनाइफ	160.	056802	मि. सेनगुप्ता अरिन्दम कोलकाता
142.	055945	मि. बासु तरुण लंडन	161.	056842	मि. कर राहुल कोलकाता
143.	055980	मि. हुसेन रसीद मीसीसौगा	162.	056881	मि. देब कुमार चटर्जी आसनसोल
144.	056079	मि. जोशी महेन्द्र कुमार हावड़ा	163.	056908	मि. राजघरिया श्रीकान्त कोलकाता
145.	056107	मि. गुप्ता भाष्कर कोलकाता	164.	056918	मि. पाधी सत्येन्द्र कुमार बलांगीर
146.	056116	मि. सतोदल राय कोलकाता	165.	057056	मि. संदीप कुमार पाडिया कोलकाता
147.	056165	मि. दत्तो सौम्य कोलकाता	166.	057078	मि. खान सबाह न्यु यार्क
148.	056172	मि. तिवारी रविन्द्र सारजाह	167.	057093	मिस. बन्धोपाध्याय कमोलिका कोलकाता
149.	056177	मि. राय अरिन्दम ओमान	168.	057171	मि. दास अरुणाभो न्यु साउथ वेल्स
150.	056285	मि. धुर दिब्येन्दु कोलकाता	169.	057177	मिस. कपुर शालिनी कोलकाता
151.	056368	मि. दे सरकार प्रोलय कोलकाता	170.	057197	मि. बोस दीप नारायण हावड़ा
152.	056374	मि. शुक्ला अनिल हुगली	171.	057256	मि. राजेश राजकरनीकार काठमांडु
153.	056382	मि. मनोज कुमार शर्मा कोलकाता	172.	057284	मि. बेनीवाल महेश सिंगापुर
154.	056390	मि. तालुकदार शिवाजी कोलकाता	173.	057373	मि. अगरवाल अजय कुमार कोलकाता
155.	056542	मि. गुप्ता राजेश कुमार कोलकाता	174.	057377	मि. केडिया निर्मल कुमार कोलकाता
156.	056589	मि. खैतान दिनेश कुमार कोलकाता	175.	057414	मि. दास चिंतामनी कोलकाता
157.	056590	मि. राय रातुल कोलकाता	176.	057434	मि. मनोज कुमार बेरीवाला कोलकाता
158.	056631	मि. देब देबासिश कोलकाता	177.	057465	मि. दिनेश शारदा कोलकाता
159.	056723	मिस. सिंह सीमा ऑटारियो	178.	057510	मि. बनर्जी सोभन कोलकाता

179. 057547	मि. स्वरूप राजीव कोलकाता	198. 058126	मि. दास प्रताप कुमार कोलकाता
180. 057567	मि. गोस्वामी इन्द्रनील कोलकाता	199. 058152	मि. बिहानी महेश कोलकाता
131. 057587	मि. गंगोपाध्याय अरुमय कोलकाता	200. 058187	मिस. सेठ तवन्नी कोलकाता
182. 057672	मिस. रामप्रसाद लाथा न्यु जर्सी	201. 058232	मि. राजेश के एस कोलकाता
183. 057682	मि. अगरवाल संजय कोलकाता	202. 058296	मि. करगुप्ता पिनाकी कोलकाता
184. 057689	मि. राय इन्द्रनील भाटपाड़ा	203. 058451	मि. परबेज सोहल अबु ढाबी
185. 057720	मि. सेन गुप्ता अनिरुद्धा कोलकाता	204. 058466	मि. नेथावेवाला अभिषेक कोलकाता
186. 057753	मि. मुखोपाध्याय सोम्य कान्ती कोलकाता	205. 058544	मि. पाठक देवेश कोलकाता
187. 057825	मि. दे कौशिक कोलकाता	206. 058560	मि. दराक विजय कुमार हावड़ा
188. 057862	मि. पाल उमाशंकर श्रीरामपुर	207. 058577	मि. विकास गोयेंका कोलकाता
189. 057890	मि. केशव महेश्वरी कोलकाता	208. 058603	मिस. बर्धन मोहुआ बर्धवान
190. 057912	मि. चटर्जी दिबयेन्दु कोलकाता	209. 058624	मिस. मधु शर्मा कोलकाता
191. 057999	मि. हरेकृष्णा पानीग्राही भुवनेश्वर	210. 058634	मि. झुनझुनवाला संजय कोलकाता
192. 058001	मि. बासु कौशिक कुमार कोलकाता	211. 058689	मि. सरोगी मनोज कोलकाता
193. 058013	मिस. कपूर दीपा दुर्गई	212. 058799	मि. जैसवाल आनन्द कोलकाता
194. 058017	मि. बफना कमल मस्कट	213. 058813	मि. चन्दक राज कुमार कोलकाता
195. 058028	मि. राय नीलाद्री कोलकाता	214. 058839	मिस. मजुन्दार दोला कोलकाता
196. 058076	मि. राजेश अगरवाल कोलकाता	215. 058853	मि. बन्धोपाध्याय फालगुनी कोलकाता
197. 058109	मि. सुब्बा बिकास मेल	216. 058890	मि. अगरवाल सोम प्रकाश कोलकाता

217.	058931	मि. केजरीवाल पवन कुमार बराकर	236.	059776	मि. रखेचा दीपक कोलकाता
218.	058937	मि. अर्नब राय चौधरी दुर्बई	237.	059781	मि. कौशतव कुमार घोष कोलकाता
219.	058958	मि. पाधी दिलीप कुमार ब्रह्मपुर	238.	059922	मि. अगरोहिया विनय कुमार कटक
220.	058984	मि. विजय कपुर हावड़ा	239.	059931	मि. मित्रा सुभराकेतन कोलकाता
221.	059099	मि. राजरश्री चरण मल्लिक भुवनेश्वर	240.	059954	मि. बांका संजय बांकुड़ा
222.	059116	मि. राय कौशिक सावपावलो	241.	060013	मि. नन्दी दिपांकर भद्रकाली
223.	059248	मि. हीसारिया राजेश कुमार खड़गपुर	242.	060050	मि. भट्टाचार्या सुगतो कोलकाता
224.	059253	मि. खोवाला ललित कुमार कोलकाता	243.	060064	मि. मिलन साधुखान कोलकाता
225.	059314	मि. सौरभ सेकसारिया कोलकाता	244.	060074	मि. अगरवाल अनुपम रिसड़ा
226.	059319	मि. सेन सैकत कोलकाता	245.	060109	मि. सुमन चक्रवर्ती कोलकाता
227.	059348	मिस. गनेरीवाला विनीता कोलकाता	246.	060141	मि. अगरवाल कमलेश कुमार कोलकाता
228.	059393	मि. सराफ प्रीतम कोलकाता	247.	060166	मिस. रूपा खैतान कोलकाता
229.	059407	मि. अगरवाल भारतेन्दु कोलकाता	248.	060185	मि. बोथरा अनुराग कोलकाता
230.	059448	मि. अगरवाल सिद्धार्थ हावड़ा	249.	060198	मि. सिरोहिया राकेश कोलकाता
231.	059621	मि. बाफना अलोक कोलकाता	250.	060217	मि. दागा रितेश कोलकाता
232.	059636	मि. गोस्वामी सुभाषीत कोलकाता	251.	060230	मि. भट्टाचार्या समरजीत कोलकाता
233.	059675	मिस. घोष नयनी कोलकाता	252.	060246	मि. पाल अभिषेक कोलकाता
234.	059733	मि. अगरवाल बृज किशोर हिन्दमोटर	253.	060266	मि. प्रदीप कुमार नरेदी राउरकेला
235.	059745	मि. बोथरा महेन्द्र कुमार कोलकाता	254.	060324	मि. चक्रवर्ती सुभ्रांसु कोलकाता



255.	060329	मि. देबनाथ कौशिक कोलकाता	274.	060764	मि. पुरोहित घनश्याम कोलकाता
256.	060331	मि. प्रमोद गौरीसारिया कोलकाता	275.	060826	मि. चौबे संजीव कुमार टिंसुकिया
257.	060368	मि. पटनायक विक्रम कोलकाता	276.	060828	मि. सराफ अनुपम कोलकाता
258.	060388	मि. रोय विवेक प्रोगुन कोलकाता	277.	060877	मि. सुब्रमनीयन एल कोलकाता
259.	060392	मि. पारख अमित कोलकाता	278.	060889	मि. चौरसिया लाल बाबु कोलकाता
260.	060407	मि. मुंद्रा बल्लव कोलकाता	279.	060890	मि. श्रीवास्तव तरंग कोलकाता
261.	060445	मि. मोदानी बसंत कोलकाता	280.	060951	मि. नीरज कलावतीया कोलकाता
262.	060455	मिस. बलदुवा मनीषा हुगली	281.	061002	मि. देसाई अमित कोलकाता
263.	060461	मि. सुभाष कुमार बुबना हावड़ा	282.	061017	मि. कोठारी राधे श्याम रिसड़ा
264.	060464	सीए. सुषमा गोयेंका कोलकाता	283.	061029	मि. अनिमेश चटर्जी कोलकाता
265.	060488	मि. बनर्जी आबीन कोलकाता	284.	061037	मि. रामानन रवि अईयर कोलकाता
266.	060513	मिसेस. राधा अगरवाल कोलकाता	285.	061039	मि. मुंधरा आदर्श कोलकाता
267.	060521	मि. लहोटी विवेक कोलकाता	286.	061084	मि. बंसल राजेश मनामा
268.	060670	मि. बेरीवाला ऋषि कोलकाता	287.	061099	मि. अगरवाल नवनीत कोलकाता
269.	060703	मि. बेबोरता संकेत भुवनेश्वर	288.	061196	मिस. उपनीत कल्याण कोलकाता
270.	060718	मि. मित्रा अरुणाभो कोलकाता	289.	061219	मि. सचिन जैसवाल कोलकाता
271.	060733	मि. विकास अगरवाल कोलकाता	290.	061226	मिस. प्रेरणा सोमानी कोलकाता
272.	060746	मि. बैद दिनेश कोलकाता	291.	061302	मि. मंडल महादेब बालासोर
273.	060757	मि. झावेरी भवेश डी कोलकाता	292.	061319	मि. सेन सौभिक कोलकाता

293.	061375	मि. ढनढनिया राहुल कुमार हावड़ा	312.	061720	मि. अगरवाल रवि कोलकाता
294.	061448	मि. गुप्ता नीतिन गुड्डु कोलकाता	313.	061740	मि. सेन अमितावा कोलकाता
295.	061462	मिस. नीतु अगरवाल रिसड़ा	314.	061779	मि. अगरवाल उदित कोलकाता
296.	061491	मि. विनय मुंद्रा कोलकाता	315.	061832	मिस. पायल बगारिया कोलकाता
297.	061493	मि. चेतन प्रकाश बगारिया कोलकाता	316.	061841	मि. अमित कुमार अगरवाल कोलकाता
298.	061499	मि. भुदोलिया अभय कुमार कोलकाता	317.	061944	मि. गुप्ता रोहित कोलकाता
299.	061502	मिस. राय बबीता सावपावलो	318.	062011	मि. मुकेश कुमार बगारिया कोलकाता
300.	061517	मि. अलोक सुराना कोलकाता	319.	062032	मि. माखरिया नवीन आसनसोल
301.	061558	मिस. संजुला भुदोलिया कोलकाता	320.	062037	मि. लाहा चन्दन कोलकाता
302.	061565	मि. दास जयन्तो कोलकाता	321.	062040	मिस. ई वासवी कोलकाता
303.	061621	मि. अगरवाल अजय कोलकाता	322.	062086	मि. गांगुली इन्द्रनील न्यु यार्क
304.	061628	मिस. ऋतु शर्मा रानीगंज	323.	062117	मि. पाल देबनाथ हावड़ा
305.	061638	मि. कपुर सरवेश कोलकाता	324.	062144	मि. भौमिक सोमनाथ कोलकाता
306.	061644	मिस. सहारिया निधी कोलकाता	325.	062215	मि. बिजय बंसल जोरेथंग
307.	061652	मि. भटनागर संदीप के कोलकाता	326.	062216	मिस. मुखर्जी अन्नदिता कोलकाता
308.	061671	मि. महेश्वरी राकेश भद्रकाली	327.	062229	मि. लदिया अंजनी कुमार स्टेमफोर्ड
309.	061679	मि. मिमानी सौरभ सीलिगुड़ी	328.	062236	सीए. स्वेता गोयल गुवाहाटी
310.	061706	मि. संजीव मन्ना तमलुक	329.	062288	मि. घोष अभिजीत बाली
311.	061719	मि. कपुर अभिषेक एसटी अलबंस अलि 1टी डब्लु	330.	062308	मि. संदीप शर्मा कोलकाता

331. 062333	मि. दे शांतनु कोलकाता	350. 062679	मि. बैद विनीत कोलकाता
332. 062339	मि. मनीष चौधरी सीलीगुड़ी	351. 062711	मि. गोर्गेका मनीष कोलकाता
333. 062366	मि. दास अभिषेक दनबरी	352. 062765	मि. नोलखा बाबु लाल हावड़ा
334. 062387	मि. पतोडिया राजेश कोलकाता	353. 062783	मि. मस्कारा पंकज कोलकाता
335. 062411	मिस. श्रीप्रिया आर कोलकाता	354. 062790	मि. सेनगुप्ता मलय कोलकाता
336. 062466	मि. मुकेश अगरवाल कोलकाता	355. 062826	मि. खैतान बाल कृष्ण कोलकाता
337. 062491	मि. अग्रवाल रितेश बड़गढ़	356. 062840	मि. जैन अमित कोलकाता
338. 062504	मि. अगरवाल मनीष कोलकाता	357. 062848	मि. सुराना गौरव हावड़ा
339. 062529	मि. बेरीवाला प्रकाश कोलकाता	358. 062880	मि. आतिश साहा हावड़ा
340. 062537	मि. केडिया आसिश कोलकाता	359. 062890	मि. पोद्दार विकास कोलकाता
341. 062541	मि. बारिक प्रशान्त कुमार सुरी	360. 062902	मि. दमानी गिरीराज कोलकाता
342. 062545	मि. बागरी रवि कोलकाता	361. 062913	मि. झुनझुनवाला गौरव कोलकाता
343. 062554	मि. संजय कुमार लोढा कोलकाता	362. 062941	मि. ब्रिजेश बमलवा कोलकाता
344. 062558	मि. भारतीय चन्द्रा शेखर कोलकाता	363. 062952	मिस. मलहोत्रा पुजा कोलकाता
345. 062567	मि. पांडा सौम्या रंजन कोलकाता	364. 062963	मि. पारेख अमित कोलकाता
346. 062573	मि. वर्मा राजीव कुमार कोलकाता	365. 062978	मि. मलहोत्रा यतिन कोलकाता
347. 062596	मि. बिश्वाल देबांकर भुवनेश्वर	366. 063005	मि. गर्ग मोहित भुवनेश्वर
348. 062661	मि. मुखर्जी श्रीमंतो हावड़ा	367. 063024	मि. बादल कुमार उपाध्याय भुवनेश्वर
349. 062666	मिस. विजय लक्ष्मी नेवटिया कोलकाता	368. 063066	मिस. जैन रत्ना ज्योति हावड़ा

369.	063103	मि. अविनाश झां लंडन	388.	063512	मि. दागा दिनेश कोलकाता
370.	063114	मि. सोंथालिया सतिश लंडन	389.	063534	मिस. कपुर अदिती गुवाहाटी
371.	063155	मि. बागरी निलेश कोलकाता	390.	063552	मिस. मोहुवन्ता श्रेया विनोद लंडन
372.	063174	मि. हितेन्द्र कुमार जैन कोलकाता	391.	063559	मिस. रिचा शर्मा कोलकाता
373.	063189	मिस. पिटी प्रियंका कोलकाता	392.	063569	मि. गुप्ता बिश्वकर्मा हावड़ा
374.	063261	मि. पटवारी पवन कुमार कोलकाता	393.	063595	मि. पॉल चिराजीत कोलकाता
375.	063275	मि. सोनी अमित कुमार कोलकाता	394.	063623	मि. राजगड़िया विकास केशरदेव हैदराबाद
376.	063315	मि. साहु उमाकान्त ढेनकानल	395.	063652	मिस. केडिया निमिशा कोलकाता
377.	063328	मि. नरेन्द्र मंधाना डालखोला	396.	063664	मि. बनर्जी प्रदीप्तो मिलटन केनिस
378.	063335	मिस. भगत सुलभा कोलकाता	397.	063671	मिस. बजाज सुमन हावड़ा
379.	063340	मि. अगरवाल मनोज कुमार कटक	398.	063697	मिस. दास रुमा कोलकाता
380.	063344	मि. बजोरिया मनीष कोलकाता	399.	063706	मि. पटेल पंकज कोलकाता
381.	063365	मि. बोथरा प्रदीप कुमार हावड़ा	400.	063709	मिस. पारीक सविता बराकर
382.	063367	मि. अगरवाल पुनीत कोलकाता	401.	063764	मि. भंसाली प्रतिक कोलकाता
383.	063389	मि. भंसाली सचिन कुमार अलिपुरद्वार	402.	063776	मि. अरुण जोशी कोलकाता
384.	063397	मि. छजलानी विशाल कोलकाता	403.	063786	मि. बागरी आसिश कुमार कोलकाता
385.	063417	मि. शर्मा विशाल कोलकाता	404.	063830	मिस. प्रीति क्याल कटक
386.	063448	मि. अंजन कुमार माइती कोलकाता	405.	063874	मि. सुरज अगरवाल कोलकाता
387.	063472	मि. कुनाल मुखर्जी कोलकाता	406.	063881	मि. अगरवाल गोपाल कुमार हावड़ा

407.	063897	मि. विशाल कुमार अगरवाल कोलकाता	426.	064171	मि. अगरवाल विजय कुमार कोलकाता
408.	063948	मि. जोशी विष्णु कान्त कोलकाता	427.	064180	मि. अधिकारी आसिस कोलकाता
409.	063967	मि. गोस्वामी तीतास कोलकाता	428.	064181	मि. कुंडू अरुणांगशु बेंगकोक
410.	064022	मि. सुक्लेच्छा शैलेन्द्र दुर्गापुर	429.	064192	मि. जोशी अंकित सीलिगुड़ी
411.	064023	मि. जैन प्रमोद कोलकाता	430.	064206	मिस. देबजानी गुहा कोलकाता
412.	064054	मि. नायक अशोक कुमार भुवनेश्वर	431.	064223	मि. जैन अमित कोलकाता
413.	064056	मि. बागरी विशाल दनबरी	432.	064259	मि. बंग गोपाल दुर्बई
414.	064070	मिस. सोम संहिता कोलकाता	433.	064298	मिस. रशमी बिहानी कोलकाता
415.	064071	मि. दत्ता अयन कोलकाता	434.	064329	मि. अमित बिहानी कोलकाता
416.	064092	मि. हरलालका विकास कोलकाता	435.	064343	मि. पुनीत खंडेलवाल रिसड़ा
417.	064097	मि. लहोटी अमित लंडन	436.	064355	मिस. अर्पिता प्रमानिक कोलकाता
418.	064113	मि. दीपक चमारिया कोलकाता	437.	064359	मि. कृति कुमार जैन हावड़ा
419.	064114	मि. नाद रवीन दुर्गापुर	438.	064368	मि. पवन कुमार केजरीवाल टिटलागड़
420.	064120	मि. बियानी विक्रम हिंदमोटर	439.	064404	मि. राजेश कुमार पांडे कोलकाता
421.	064125	मि. बत्रा रवी कोलकाता	440.	064405	मि. अमित कुमार अगरवाल कोलकाता
422.	064126	मि. सेठी राहुल सिंगापुर	441.	064428	मि. राम भरत यादव बर्नपुर
423.	064142	मि. दीपक जैन कोलकाता	442.	064442	मि. मनीष खन्ना कोलकाता
424.	064147	मिस. केजरीवाल पायल कोलकाता	443.	064488	मि. विकास दोकानिया लंडन
425.	064160	मिस. खुराना जिन्नी कोलकाता	444.	064561	मिस. निधी बैद कोलकाता

445. 064565	मि. अविषेक जैन कोलकाता	464. 064858	मि. रवि खंडेलवाल कोलकाता
446. 064577	मि. अमित कुमार अगरवाल हावड़ा	465. 064880	मिस. निशा जैन कोलकाता
447. 064593	मि. जगन्नाथ राउत बालासोर	466. 064890	मि. प्रवीन अगरवाला सीलिगुड़ी
448. 064618	मि. अमित जैन कोलकाता	467. 064899	मि. अशोक कुमार माइती कोलकाता
449. 064649	मि. विवेक पोद्दार हावड़ा	468. 064925	मि. निखील सराफ कोलकाता
450. 064673	मि. संतोश कुमार अगरवाल कोलकाता	469. 064932	मिस. दीपा कुमारी कोलकाता
451. 064674	मि. मुकूल अगरवाल कोलकाता	470. 065043	मि. सुमित पोद्दार कोलकाता
452. 064676	मि. अमिताभ साहू कियोनझर	471. 065055	मि. राजीव अगरवाल कोलकाता
453. 064688	मि. सुमन घोष कोलकाता	472. 065078	मि. राजेश कुमार परीच्छा ब्रह्मपुर
454. 064703	मिस. प्रिया शारदा कोलकाता	473. 065083	मि. अतुल गुप्ता कोलकाता
455. 064724	मि. आकाश कुमार जैन हावड़ा	474. 065084	मि. भाष्कर दावे कोलकाता
456. 064737	मिस. ममता अगरवाल कोलकाता	475. 065094	मिस. रशमी शाह कोलकाता
457. 064743	मि. किष्ण राठी कोलकाता	476. 065102	मि. सुमित कुमार कोलकाता
458. 064762	मि. पियुष सुरेका कोलकाता	477. 065115	मि. मनीष अगरवाल कोलकाता
459. 064771	मि. अंकुश अगरवाल कोलकाता	478. 065129	मि. सुजीत कुमार अगरवाल कोलकाता
460. 064777	मिस. नुतन गाबा कोलकाता	479. 065159	मि. नवनीत झावर कोलकाता
461. 064806	मि. कपिल सभरवाल कोलकाता	480. 065193	मि. सुभासिष सरकार कोलकाता
462. 064826	मि. संदीप कुमार अगरवाल हावड़ा	481. 065203	मि. राजेश माल कोलकाता
463. 064843	मि. अनिमेश गार्दिया दुर्ग	482. 065226	मि. अंकुर कंडोई कोलकाता

483.	065245	मिस. मिली रशतोगी कोलकाता	502.	065586	मिस. अन्तिमा मुंद्रा हावड़ा
484.	065258	मि. नीरज कुमार जुमरानी कोलकाता	503.	065590	मि. सुचीब्रतो बन्धोपाध्याय कोलकाता
485.	065280	मिस. ज्योति बागरी कोलकाता	504.	065596	मि. बिपलब दत्तो राय कोलकाता
486.	065311	मि. अमित पाठक कोलकाता	505.	065626	मि. सुसोभन पटनायक पांसकुरा
487.	065321	मि. आसिश दयमा हावड़ा	506.	065694	मिस. अमृता गुप्ता कोलकाता
488.	065333	मि. तिरथा प्रतिम साहु कोलकाता	507.	065717	मि. राजकमल सिंह रानीगंज
489.	065341	मि. आनन्द कुमार सिन्हा कोलकाता	508.	065770	मिस. दीपालि जयराम कोलकाता
490.	065383	मि. सुब्रतो कुमार पांडा भुवनेश्वर	509.	065774	मि. सुसमित बनर्जी कोलकाता
491.	065384	मिस. अदिती सराफ कोलकाता	510.	065791	मिस. रीना खैतान कोलकाता
492.	065431	मि. दिलीप कुमार मिश्रा पारादीप	511.	065815	मि. राहुल जैन कोलकाता
493.	065433	मि. अमित कुमार अगरवाल कोलकाता	512.	065817	मि. नवनीत राठी कोलकाता
494.	065438	मि. गोपाल कृष्णा गोयेंका भुवनेश्वर	513.	065824	मि. जावेद सिद्दीकी कोलकाता
495.	065441	मि. हितेश दोशी कोलकाता	514.	065829	मि. कमलेश अगरवाल कोलकाता
496.	065508	मिस. निधी हिंगर कोलकाता	515.	065844	मि. राज आनन्द कोलकाता
497.	065512	मि. नीरज गोयल कोलकाता	516.	065862	मि. बिरेन्द्र कुमार महनोत कोलकाता
498.	065523	मि. पंकज कुमार अगरवाल कोलकाता	517.	065865	मि. प्रनय कुमार सुरेका कोलकाता
499.	065525	मि. शशी भुषण मिश्रा कोलकाता	518.	065872	मि. आशुतोश कुमार मल्लिक कोलकाता
500.	065544	मि. हरिश अरोरा आसनसोल	519.	065874	मि. गोपाल कृष्णा पोद्दार नैहटी
501.	065546	मि. सत्याकामा देबाज्योती राय भुवनेश्वर	520.	065894	मिस. ममता ओझा हल्दिया

521.	065899	मि. हेमन्त बैद हावड़ा	540.	066224	मिस. प्रियंका नाथ कोलकाता
522.	065913	मि. रकसित कुमार रिसड़ा	541.	066278	मि. विकास केडिया कोलकाता
523.	065920	मि. दाव दयाल माल कोलकाता	542.	066287	मि. राजु बनर्जी कोलकाता
524.	065936	मि. देबजीत बनर्जी कोलकाता	543.	066293	मि. अमित उपाध्याय कोलकाता
525.	066025	मि. राजेश रोय कोननगर	544.	066333	मि. उमेश कुमार शर्मा हावड़ा
526.	066036	मि. विनीत चन्द कोलकाता	545.	066337	मि. पवन कुमार कोलकाता
527.	066041	मि. सुभाष कुमार चौधरी कोलकाता	546.	066338	मिस. सुजाता चक्रवर्ती लंडन
528.	066059	मिस. शिउली दत्ता कोलकाता	547.	066339	सीए. अमित पचेरीवाला कोलकाता
529.	066065	मि. गौरव दलान कोलकाता	548.	066341	मि. सुबीर कुमार अग्रवाला जगतसिंहपुर
530.	066075	मिस. प्रिती काबरा गुवाहाटी	549.	066349	मिस. पुजा जैन कोलकाता
531.	066088	मि. पियुष अगरवाल कोलकाता	550.	066375	मि. दिव्येन्दु मल्लिक हावड़ा
532.	066100	मिस. जिनीशा पारेख कोलकाता	551.	066379	मि. नरेन्द्र सराफ हावड़ा
533.	066147	मि. राम चन्दर शर्मा कोलकाता	552.	066404	मि. जयदीप पुरकयश्था गुवाहाटी
534.	066155	मि. उमेश कुमार गुप्ता कोलकाता	553.	066406	मि. अनिल सुरेका कोलकाता
535.	066161	मि. प्रदीप अगरवाल कोलकाता	554.	066508	मि. पियुष छोछारिया कोलकाता
536.	066178	मि. हेमन्त अगरवाल कोलकाता	555.	066512	मिस. लीला अगरवाल गुवाहाटी
537.	066195	मि. मुकेश कुमार सराफ कोलकाता	556.	066546	मि. सगदर्शी कोलकाता
538.	066200	मि. सुरोजीत कश्यपी कोलकाता	557.	066639	मि. नीरज भीमसारिया पुरुलिया
539.	066207	मिस. तृपति कनोरिया कोलकाता	558.	066642	मि. सुनीत खंडेलवाल रिसड़ा



559.	066653	मि. अभिषेक मोहता कोलकाता	578.	067217	मि. विकास दोकानिया आसनसोल
560.	066691	मिस. गागोरी चटर्जी कोलकाता	579.	067274	मिस. हर्षा पचीसिया कोलकाता
561.	066713	मि. राजिव चौधरी कोलकाता	580.	067275	मि. सरोज कुमार मोहन्ती भुवनेश्वर
562.	066744	मि. एमडी जहीद हावड़ा	581.	067307	मि. प्रोसेनजीत सेनगुप्ता दुर्गापुर
563.	066781	सीए. प्रवीण अगरवाल कोलकाता	582.	067311	मि. अमित कुमार पटवारिका कोलकाता
564.	066818	मि. नवल काला कोलकाता	583.	067328	मि. भरत मरोदिया कोलकाता
565.	066857	सीए. अरूण कुमार अगरवाल सेवड़ाफूली	584.	067334	मि. फिरोज कुमार बराद भुवनेश्वर
566.	066871	सीए. उमेश चन्द्रा गिरी कोलकाता	585.	067344	मि. ताहा सदिकोट कोलकाता
567.	066878	सीए. सुरित सोम कोलकाता	586.	067372	मिस. अमृता राय रिसड़ा
568.	066925	सीए. कौशिक अगरवाला कोलकाता	587.	067373	मि. सुमन कुमार कोलकाता
569.	066941	मि. हरेश पटेल कोलकाता	588.	067397	मि. मुकेश चन्द बुराद रानीगंज
570.	066953	मि. सौरभ पाल कोलकाता	589.	067401	मि. गौरव दोकानिया कोलकाता
571.	067037	सीए. पार्थो दत्ता पलता	590.	067419	मि. महेश शारदा हिन्दमोटर
572.	067188	मि. दीपक कुमार भंसाली कोलकाता	591.	067425	मि. विनोद प्रसाद कोलकाता
573.	067189	मि. सुदर्शन जैन हावड़ा	592.	067452	मि. नितीन कुमार केडिया हावड़ा
574.	067190	मि. अवनिश कुमार सिंह हावड़ा	593.	067479	मि. सुदीप केडिया कोलकाता
575.	067199	मि. संजय बहेती कोलकाता	594.	067484	मि. चन्दन जिंडल कोलकाता
576.	067200	मि. अतुल राघव कोलकाता	595.	067523	मि. विकास अगरवाल कोलकाता
577.	067211	मि. संदीप मंगल अगरवाल कोलकाता	596.	067548	मि. अमित कुमार मिश्रा हावड़ा

597.	067550	मि. पियुष चोरारिया हावड़ा	616.	067995	मि. मनीष डिग्गा कोलकाता
598.	067574	मि. संदीप बगारिया सल्लिकिया	617.	067997	मिस. इन्द्रानी हजारीका दुबई
599.	067576	मि. गोपाल पंसारी हावड़ा	618.	068016	मि. प्रवीण अगरवाल बराकर
600.	067602	मिस. दीपा अवनी कान्त कोलकाता	619.	068037	मि. मनीष चौधरी आसनसोल
601.	067608	मि. इन्द्रनील दास कोलकाता	620.	068043	मि. धरम चन्द सेठिया कोलकाता
602.	067613	मिस. मीनु कपुर कोलकाता	621.	068074	मिस. स्वीटी अग्रवाल सीलीगुड़ी
603.	067652	मि. विवेक डालमिया कोलकाता	622.	068080	मि. विशाल सुराना हावड़ा
604.	067724	मिस. पायल गोयल कोलकाता	623.	068179	मि. रवि बरलिया सीलीगुड़ी
605.	067738	मि. हिमांशु मोहता हावड़ा	624.	068241	मिस. ज्योती मोदी कोलकाता
606.	067740	मि. कमल ज्ञानवर हावड़ा	625.	068261	मि. पंकज कुमार चौधरी भद्रकाली
607.	067761	मि. विकास वर्मा कोलकाता	626.	068266	मि. मनमोहन धनुका हावड़ा
608.	067808	मि. सचिन कुमार सिंह हावड़ा	627.	068269	मिस. शिल्पा अगरवाल कोलकाता
609.	067812	मि. सतिश कुमार बाहरीन	628.	068283	मि. अमित कुमार टेकरीवाल कोलकाता
610.	067832	मि. सखता कृष्णा देब कोलकाता	629.	068284	मि. भाष्कर एस सहाय हावड़ा
611.	067863	मि. प्रवीण अग्रवाल भुवनेश्वर	630.	068295	मि. रतनेश कुमार पांडे कोलकाता
612.	067902	मि. विकास कुमार पोल कोलकाता	631.	068303	मि. विनय पोद्दार हावड़ा
613.	067939	मि. कुनाल पारेख कोलकाता	632.	068349	मि. उमेश कुमार सुलतानिया कोलकाता
614.	067958	मि. राकेश अगरवाल कोलकाता	633.	068375	मि. प्रभात कुमार सिंह कोलकाता
615.	067971	मि. विकास जैन कोलकाता	634.	068378	मि. जयदीप भवाल गुवाहाटी

635.	068388	मि. शाहबाज आलम दुबई	654.	068709	मि. पंकज कुमार बहेती हावड़ा
636.	068390	मि. अनुप कुमार बगारिया कटक	655.	068711	मि. पंकज पेरीवाल कोलकाता
637.	068407	मि. विजय बजाज कोलकाता	656.	068713	मि. सुभायु घोष बोलपुर
638.	068421	मि. राहुल दिक्षित हावड़ा	657.	068716	मि. वरुण हरलालका कोलकाता
639.	068442	मिस. पायल पोद्दार कोलकाता	658.	068722	मि. अभिषेक लठ बराकर
640.	068458	मि. गौरव अगरवाल हावड़ा	659.	068770	मि. विनय कुमार सराफ कोलकाता
641.	068469	मिस. सुकन्या गुइन कोलकाता	660.	068802	मि. राजशेखर बसाक कोलकाता
642.	068478	मि. अलोक कुमार कोलकाता	661.	068817	मि. पंकज छोछरिया कोलकाता
643.	068490	मि. बिकास अगरवाल रिसड़ा	662.	068857	मि. साकेत कुमार चिरनिया हावड़ा
644.	068503	मिस. अनुराधा झुनझुनवाला कोलकाता	663.	068875	मि. गौरव कुमार खैतान कोलकाता
645.	068518	मि. प्रतिक अगरवाल कोलकाता	664.	068901	मि. गुलाम मोहम्मद वारिस सिद्दीकी कोलकाता
646.	068531	मिस. स्मिता ग्रोवर कोलकाता	665.	068920	मि. अभिषेक मोहापात्रो भुवनेश्वर
647.	068552	मि. अभिजीत पाल कोलकाता	666.	068953	मि. अंकित लोहिया कोलकाता
648.	068562	मि. आसिस धनधरिया भद्रकाली	667.	069025	मि. दिप्तेन्दु पंडित कोलकाता
649.	068563	मिस. प्रियांका बंग हावड़ा	668.	069044	मि. बिजय कुमार सुहासरिया बांकुड़ा
650.	068636	मि. सुभ तिवारी कोलकाता	669.	069125	मि. हर्ष वर्धन बोलिया कोलकाता
651.	068689	मि. मनोज अगरवाल कोलकाता	670.	069150	मि. सौरभ केजरीवाल हावड़ा
652.	068694	मि. सचिन कुमार जैन कोलकाता	671.	069161	मिस. अनु टोडी आगरतला
653.	068699	मि. नितेश केजरीवाल कोलकाता	672.	069180	मि. अभिषेक अगरवाल खड़गपुर

673.	069182	मिस. अमृता कुमारी कोलकाता	692.	069426	मि. अर्निबान दास कोलकाता
674.	069188	मि. अभिषेक गढीयान बराकर	693.	069468	मि. प्रमोद कुमार सिंह कोलकाता
675.	069198	मि. अमित राठी कोलकाता	694.	069473	मि. दीपक शर्मा कोलकाता
676.	069208	मि. मनीष अगरवाला कोलकाता	695.	069523	मिस. राजेश्वरी शर्मा कोलकाता
677.	069211	मि. मोहम्मद अरशद अलि कोलकाता	696.	069598	मि. अमित अगरवाल हावड़ा
678.	069257	मि. रौशन दहल कोलकाता	697.	069605	मि. विकास जैन कोलकाता
679.	069270	मि. अनूप अगरवाल हावड़ा	698.	069607	मि. गौरव शर्मा कोलकाता
680.	069292	मि. सौरभ बगारिया रानीगंज	699.	069610	मि. राहुल बहेती कोलकाता
681.	069295	मि. हर्ष वर्धन नथानी कोलकाता	700.	069611	मि. मौज ए सिंगापुरवाला कोलकाता
682.	069305	मिस. स्नेहा फोगला अंगुल	701.	069629	मि. अभिषेक झुनझुनवाला कोलकाता
683.	069319	मि. निखील वशिष्ठ कोलकाता	702.	069657	मिस. शिल्पा अगरवाल कोलकाता
684.	069345	मि. मनीष कुमार पटवारी हावड़ा	703.	069666	मि. सौरभ भारतीया कोलकाता
685.	069354	मि. अभिषेक कुमार शर्मा कोननगर	704.	069682	मि. पबित्रा मोहन दास बालासोर
686.	069362	मि. दीपक दागा कोलकाता	705.	070370	मि. मित्तल कैलाश चन्द्रा गुवाहाटी
687.	069398	मिस. नेहा भाटिया कोलकाता	706.	070630	मि. अगरवाल गोपाल दास कोलकाता
688.	069399	मि. पार्थो सारथी पारीजा कटक	707.	071392	मि. टंडन दीपक बालासोर
689.	069402	मि. मोहित जैन हावड़ा	708.	072485	मि. सांतनु गांगुली कोलकाता
690.	069418	मि. विकास केडिया भद्रकाली	709.	072943	मि. कृष्ण एस आर कोलकाता
691.	069422	मिस. निकिता अगरवाल मालदा	710.	074642	मि. उपाध्याय विष्णु दत्त रिसड़ा

711.	078256	मि. मजुन्दार सौमेन्द्र कोलकाता	730.	126751	मिस. उर्मिला कोठारी कोलकाता
712.	079439	मि. अमित कुमार जैन कोलकाता	731.	128223	मि. विवेक झुनझुनवाला कोलकाता
713.	084309	मि. मिर्जा एम जहांगीर कोलकाता	732.	133786	मि. अंकुर कुमार दोकानिया कोलकाता
714.	086242	मि. पांडा त्रिलोचन भुवनेश्वर	733.	207571	मि. अनन्थ वी कोलकाता
715.	093665	मि. झुनझुनवाला आदित्या कोलकाता	734.	209038	मि. राजा राय कोलकाता
716.	095652	मि. बिरेश दास भुवनेश्वर	735.	211633	मि. निहार रंजन पात्री भुवनेश्वर
717.	098148	मिस. रचना एम केजरीवाल कोलकाता	736.	212455	मि. सिंह रशमी रंजन भुवनेश्वर
718.	100575	मि. सौमिक मुखर्जी कोलकाता	737.	214714	मि. विशाल जजोडिया कटक
719.	101071	मि. पाथी सुभाकान्तो भुवनेश्वर	738.	216464	मि. विदयानन्द प्रभाकर हावड़ा
720.	101830	मि. अर्निबान दास कोलकाता	739.	216494	मि. सुभांकर दास कटक
721.	103628	मि. चौधरी सुरेश कुमार दुर्ग	740.	217942	मि. प्रियोब्रतो बिश्वाल भुवनेश्वर
722.	105811	मिस. घोष आइवी प्रिया कालाबासास	741.	219200	मि. सरोज कुमार बघाई झारसुगुदा
723.	106502	मि. चक्रवर्ती रणबीर कोलकाता	742.	221938	मि. पुर्व दीप सिंह भट्टल राउरकेला
724.	107105	मि. रूप नरेन्द्रनाथ राय कोलकाता	743.	222980	मि. ऋषी गुप्ता कोलकाता
725.	108716	मि. बर्नवाल संजय कुमार आसनसोल	744.	224553	मि. नकुल कुमार कोलकाता
726.	109772	मि. ग्रेवाल जसराज सिंह कोलकाता	745.	401187	मि. गोस्वामी देबोब्रतो कोलकाता
727.	110935	मि. राय लोपामुद्रा तापस कोलकाता	746.	409109	सीए. चन्दन कुमार मित्तल भुवनेश्वर
728.	112297	मिस. मंगला विश्वनाथ अईर कोलकाता	747.	502239	मि. जैन उत्तम कुमार कोलकाता
729.	115108	मि. सुमन्तो कुमार नायक भुवनेश्वर	748.	503613	मि. ठोई अंशुमान भुवनेश्वर

749. 504362	मि. सामन्ताराय कामिनी कान्तो भुवनेश्वर	753. 511219	मि. हबीबुर रहमान खान दुलियाजान
750. 507202	मिस. निकिता सिन्हा कोलकाता	754. 511227	मि. आसिश अगरवाल हावड़ा
751. 509183	मि. सुमित झुनझुनवाला रानीगंज	755. 513533	मि. पंकज गर्ग कोलकाता
752. 510324	मि. बासु शर्मा कोलालामपुर	756. 517881	मि. कृष्णा प्रसाद कोलकाता

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

### राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. रा.स.वि.नि. : 2-1/2010-प्रशा.-

अधिसूचना सं०:रा०स०वि०नि०:2-1/2010-प्रशा० दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को भारत के राजपत्र सं०-44 के भाग III खण्ड 4 दिनांक अक्टूबर 30-नवम्बर 5, 2010 में प्रकाशित हुई है, में आंशिक संशोधन करते हुए निगम के प्रबंध मंडल ने दिनांक 27 जून, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियमावली, 1967 के नियम संख्या-7 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन का अनुमोदन किया है :-

1. (v) निदेशक - कालम 11 एवं 12 के वर्तमान प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:-

11.	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन से भर्ती करने के मामले में किस ग्रेड में प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति: उप निदेशक ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों आदि में सदृश्य पदों पर कार्यरत अथवा 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन के पदों पर 5 वर्ष की सेवा के साथ; अथवा</p> <p>(ii) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखता हो:</p> <p>स्नातक डिग्री के साथ वित्त/विपणन में विशेषज्ञता सहित एम०बी०ए० (2 वर्षीय पूर्णकालिक/3 वर्षीय अंशकालिक) अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/कृषि व्यवसाय/ ग्रामीण प्रबंधन/ सहकारी प्रबंधन/बैंकिंग/बीमा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट/कॉस्ट एकाउंटेंट राग्यता उपरान्त किसी बैंक/वित्तीय/विकासआत्मक संस्थान में वित्त, लेखा, कॉस्टिंग, कराधान, जोखिम आकलन, लेखा परीक्षा, संसाधन प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, वित्त पोषण, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा संबद्ध कार्यों में कार्यपालक क्षमता में 8 वर्ष का अनुभव।</p> <p>(इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार में धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद में नियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4(चार) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति (अल्पावधिक अनुबंध सहित)/स्थानांतरण हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p>

2.(xxi) बहु कार्य स्टाफ-स्कूटर राईडर- 'बहु कार्य स्टाफ' शब्द, जो स्कूटर राईडर के पद से पहले जोड़ा गया था, हटा दिया गया है ।

3.(xxii) बहु कार्य स्टाफ-इलैक्ट्रिशियन - 'बहु कार्य स्टाफ' शब्द, जो इलैक्ट्रिशियन के पद से पहले जोड़ा गया था, हटा दिया गया है ।

4. नोट: भर्ती नियम के अंतिम पृष्ठ के नोट में क्रम सं०-4 का प्रावधान किया गया है तथा वर्तमान क्रम सं०-4 को 5 निम्न प्रकार बना दिया गया है:-

4. मुख्य निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु एक अधिकारी को प्रोग्राम अधिकारी अथवा सहायक निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा निदेशक के तौर पर सामान्यतः कम से कम 3 वर्ष फील्ड कार्यालय में, अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में तैनाती के मामले में मुख्यालय में कम से कम 3 वर्ष सेवा की गई हो ।

ये प्रावधान/संशोधन 27 जून 2012 से लागू होंगे ।

चन्द्र भूषण पालीवाल  
प्रबंध निदेशक

## राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं0एल/61/2010\_रा.वि.से.प्रा.-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में,-

(क) उप विनियम (1) में,-

(i) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(डक) “पैनल वकील” से विनियम 8 के अधीन किसी पैनल वकील के रूप में पैनलीकृत कोई विधि व्यवसायी अभिप्रेत है”;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(चक) “प्रतिधारक वकील” से कोई पैनल वकील अभिप्रेत है जो विनियम 8 के उप विनियम (6) के अधीन प्रतिधारित वकील के रूप में अभिहित है”;

3. मूल विनियम के विनियम 4 में,-

(क) उप विनियम (1) में,-

(i) “उपलब्ध पैनल वकील के साथ प्रबंध कार्यालय” शब्दों के स्थान पर “कोई व्यक्ति प्रबंध कार्यालय में” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री या डिप्लोमा या मनश्चिकित्सा या मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री

रखने वाले व्यक्तियों को जब कभी आवश्यक हो प्रबंध कार्यालय में भी बुलाया जा सकेगा।”;

(ख) उपविनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं की दशा में, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् किसी पैनल वकील या प्रतिधारित वकील की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी और ऐसा वकील उसे विनियम 7 के अधीन गठित समिति को अग्रेषित करेगा।”;

(ग) उपविनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(3) प्रबंध कार्यालय में पैरा विधिक स्वयंसेवक ऐसी सेवाएं जैसे साधारण सूचना जारी करना, आवेदन और अर्जियों का प्रारूपण, किसी स्थिति में की जाने वाले कार्यवाहियों के अनुक्रम पर आधार सूचना उपलब्ध कराना और विधिक सेवाओं की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के मध्य किसी मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना तथा विधिक सेवा संस्था को न्याय की पहुंच प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को समर्थ बनाने जैसी सेवाएं देना।”;

(घ) उपविनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(4) प्रबंध कार्यालय में यथास्थिति पैरा विधि स्वयंसेवक या पैनल वकील या प्रतिधारित वकील विधिक सेवा संस्थाओं के कर्मचारिवृंद से सचिवीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।”;

(ङ) उपविनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(5) अति आवश्यक मामलों की दशा में, प्रबंध कार्यालय में विधिक सेवाओं की आवश्यकता में व्यक्तियों को समुचित प्रकृति की विधिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिधारित वकील को बुलाया जा सकेगा:

परंतु विनियम 7 के अधीन गठित समिति ऐसे वकील द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार और अनुमोदन कर सकेंगे।”;

4. मूल विनियम के विनियम 8 के उपविनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(10) यथास्थिति पैनल वकील या प्रतिधारित वकील विधिक सहायता मामलों पर विचार करने के लिए उपलब्ध होंगे:

परंतु ऐसे वकील अन्य पक्ष पत्र ले सकेंगे किंतु वह किसी पक्षकार के विरुद्ध उपस्थित नहीं होंगे जिसे विधिक सेवा संस्था के माध्यम से विधिक सहायता दी गई है:

परंतु यह और कि ऐसा प्रतिषेध वहां नहीं होगा जहां दोनों पक्षकारों ने विधिक सहायता प्राप्त की है।”

यू. सरथचंद्रन  
सदस्य-सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं.एल /61/2010/नाल्सा, तारीख 13 सितंबर 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।



## भारतीय भेषजी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

संख्या 14-1/2011-पी.सी.आई.-पार्ट-I - भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2006 की एस.एल.पी. संख्या 24295 तारीख 16.5.2007 में 'केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद्, प्रिंसिपल, कॉलेज और अन्य' के मामले में और रैगिंग उत्पीड़न के प्रतिषेध, निवारण और उन्मूलन के लिए 2009 की सिविल अपील संख्या 887 तारीख 8.5.2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय भेषजी परिषद् केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है।

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- i) इन विनियमों को फार्मैसी कॉलेज में रैगिंग के दुष्परिणामों पर रोक लगाने संबंधी भारतीय भेषजी परिषद् विनियम, 2012 कहा जाएगा।
- ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- iii) ये विनियम देश में भेषजी शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए भेषजी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों और समय-समय पर यथा संशोधित उसके अधीन तैयार किए गए विनियमों के अनुसार स्थापित किए गए सभी भेषजी संस्थानों और ऐसे संस्थानों के सभी परिसरों जिसमें शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, कैंटीन या अन्य ऐसे परिसर भले ही वे कैम्पस परिसर के अंदर हों अथवा कैम्पस परिसर के बाहर शामिल हैं, पर लागू होंगे और विद्यार्थियों के यातायात के सभी साधनों पर, चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी हों, जिन्हें विद्यार्थी इन भेषजी संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रयोग करते हों, पर लागू होंगे।

भेषजी अधिनियम, 1948 और इसके अधीन समय-समय पर यथा संशोधित और बनाए गए विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भेषजी कॉलेज के प्रबंधन/संस्था-प्रमुख का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वे इन कॉलेजों में दिए जा रहे प्रशिक्षण के भेषजी विद्यार्थियों को भेषजी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरक वातावरण तैयार करें और उनके भेषजी कॉलेजों में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के निवारण/प्रतिषेध/नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए ताकि विद्यार्थी विस्तृत भेषजी पाठ्यक्रम और उसके विभिन्न मानकों और भेषजी शिक्षा की संकल्पनाओं का अध्ययन शांत वातावरण में कर सकें क्योंकि भेषजी शिक्षा में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है।

## 2. उद्देश्य:-

किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किसी ऐसे आचरण का प्रतिषेध करना, चाहे वह मौखिक रूप से कहकर या लिखित में या किसी कार्य द्वारा किया गया हो जिससे किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी को छेड़ा जाए, उसके साथ अशिष्टता से व्यवहार किया जाए या किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा हुल्डबाजी की जाए या अनुशासनहीन क्रियाकलाप किए जाएं जिससे किसी नए विद्यार्थी या विद्यार्थियों को परेशानी, कठिनाई या मानसिक हानि हो या होने की संभावना हो या उससे उसका डर या आशंका बढ़ जाए या ऐसा होने की संभावना हो या किसी विद्यार्थी के ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाए जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करता है जिससे उसे शर्म आए या यातना सहनी पड़े या उसे उलझन हो जो किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी के शरीर अथवा मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले और चाहे ऐसा उसने किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी को किसी विद्यार्थी द्वारा परपीड़ा से प्रसन्नता पाने या शक्ति, ताकत या वरिष्ठता प्रदर्शन के आशय से किया हो अथवा उसका ऐसा आशय न रहा हो, इन विनियमों के अधीन प्रतिषेध द्वारा देश में भेषजी संस्थानों से सभी प्रकार के रैगिंग का उन्मूलन करना, ऐसी घटनाओं का निवारण करना और इन विनियमों और प्रवृत्त उपयुक्त विधि में दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार उन दोषियों को सजा देना जो रैगिंग संबंधी कार्य में लिप्त हों।

### 3. रैगिंग से क्या अभिप्रेत है :-

यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कार्यों में से कोई एक या एक से अधिक कार्य करता है तो उसे रैगिंग करना माना जाएगा।

- क ) किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा बोलकर या लिखित रूप में किसी कार्य के द्वारा ऐसा कोई आचरण जिससे किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी को छेड़ा जाए, उसके साथ अशिष्टता से व्यवहार किया जाए।
- ख ) किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा हुल्डबाजी करना या अनुशासनहीन क्रियाकलाप करना जिससे किसी नए विद्यार्थी या विद्यार्थियों को परेशानी, कठिनाई या मानसिक अपहानि हो या ऐसा होने की संभावना हो या उससे उसका डर या आशंका बढ़ जाए या ऐसा होने की संभावना हो।
- ग ) किसी विद्यार्थी को ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो वह साधारण स्थिति में नहीं करता है जिससे उसे शर्म आए या उसे यातना सहनी पड़े या उसे उलझन हो और उससे उस नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी के शरीर अथवा मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- घ ) किसी वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो किसी अन्य विद्यार्थी या किसी नए विद्यार्थी के नियमित शैक्षिक क्रिया-कलाप को रोके, बाधित करे।
- ङ.) किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी की सेवाओं का शोषण करना।
- च ) विद्यार्थियों द्वारा किसी नए विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थी से पैसे की जबरन वसूली या खर्चों का भुगतान करने के लिए मजबूर करना।
- छ ) शारीरिक शोषण का कोई कार्य और इसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं : यौन शोषण, समलैंगिक हमला, वस्त्रहीन करना, अश्लील और कामुक कार्यों भंगिमाओं के लिए विवश करना जिससे स्वास्थ्य या व्यक्ति को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुँचे या उसे कोई अन्य जोखिम हो।
- ज ) शब्द बोलकर, ई-मेल, पत्र, सार्वजनिक अपमान का कोई कार्य या दुर्व्यवहार जिससे नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी को असहज करने में सक्रिय रूप से या परोक्ष रूप से भाग लेकर मिलने वाली वीभत्स खुशी, परपीड़न से मिलने वाला रोमांच शामिल है।
- झ ) ऐसा कोई कार्य जो नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले चाहे उसका आशय किसी विद्यार्थी द्वारा किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी का उत्पीड़न कर खुशी प्राप्त करना या शक्ति, अधिकार या वरिष्ठता का दिखावा करना हो अथवा न हो।

### 4. परिभाषाएं :-

- 1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अव्यथा अपेक्षित न हो :-

- क ) “अधिनियम” से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) अभिप्रेत है ;
- ख ) “शैक्षिक वर्ष” से भेषजी संस्थान में अध्ययन के भेषजी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के प्रवेश से आरंभ होकर उस विशिष्ट वर्ष के लिए शैक्षिक अपेक्षा के पूरा होने तक की अवधि अभिप्रेत है।
- ग ) “रैगिंग निरोधी हेल्प लाईन” से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन उच्चतर शिक्षा संस्थानों, 2009 में रैगिंग के जोखिम को नियंत्रण करने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के अधीन स्थापित हेल्पलाईन अभिप्रेत है।

- घ ) 'केन्द्रीय परिषद्' से भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् अभिप्रेत है।
- ड.) 'संस्था का प्रमुख' से विश्वविद्यालय अथवा मानद विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रिंसिपल या निदेशक या संस्था-प्रमुख/विभाग प्रमुख या ऐसा कोई अन्य पदनाम जिसे संस्थान या कॉलेज का कार्यकारी प्रमुख द्वारा दिया जाए।
- च) 'नए विद्यार्थी (फ़ेशर)' से ऐसा विद्यार्थी अभिप्रेत है जिसने किसी संस्थान में प्रवेश लिया है और जो उस संस्था में अध्ययन के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है।
- छ) 'संस्थान' से भेषजी अधिनियम, 1948 और समय-समय पर यथा संशोधित उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार देश में भेषजी शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन से स्थापित किए गए भेषजी संस्थान अभिप्रेत है।
- ज) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ ऐसा विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 में दिए गए अर्थ के अंतर्गत आता है और इसमें ऐसे अन्य संस्थान शामिल हैं जिन्हें केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन संस्थान के रूप में स्थापित किया गया हो जिसे केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट करें।
- झ) 'परीक्षा प्राधिकरण' से भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 12 (2) के अधीन अनुमोदित भेषजी परीक्षा आयोजित करने वाले भेषजी परीक्षा आयोजन प्राधिकरण अभिप्रेत है।
2. इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों और ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है या साधारण खंड अधिनियम, 1897 में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो यथा स्थिति अधिनियम या साधारण खंड में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

## 5. संस्थान स्तर पर रैगिंग के प्रतिषेध के लिए उपाय :-

- क ) कोई संस्थान या उसका कोई भाग, जिसमें उसके हिस्से शामिल हैं, जिसमें विभाग, उनकी संघटक इकाईयां, कॉलेज, अध्ययन केन्द्र और इसके सभी परिसर, चाहे वे शैक्षिक आवासीय, खेल के मैदान अथवा कैंटीन हो, चाहे वे कैम्पस के अंदर हों अथवा बाहर हों, शामिल है और विद्यार्थियों के यातायात के सभी साधन, चाहे वे सार्वजनिक हों अथवा निजी हों, जिनका प्रयोग विद्यार्थी ऐसे संस्थानों में अध्ययन के लिए आने-जाने के लिए करते हैं, में किसी भी रूप में रैगिंग की किसी सूचित घटना की अनुमति नहीं देंगे या उनकी अनदेखी नहीं करेंगे और सभी संस्थान, संस्थान के अंदर या बाहर रैगिंग के उन्मूलन के उद्देश्य से विनियमों में शामिल उपबंधों, लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं हैं, के अनुसार सभी आवश्यक और अपेक्षित उपाय करेंगे।
- ख ) सभी संस्थान इन विनियमों के अनुसार उन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो रैगिंग और/अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण, सक्रिय या परोक्ष रूप में, रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यंत्र का हिस्सा बनने के दोषी पाए जाए।

## 6. संस्थान स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय :-

### 6.1 संस्थान विद्यार्थियों के प्रवेश या पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाएंगे ; नामतः ,

क ) किसी संस्थान द्वारा भेषजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य-दृश्य या प्रिंट या किसी अन्य मीडिया में इस आशय की सार्वजनिक घोषणा में अभिव्यक्त रूप से प्रावधान होगा कि संस्थान में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है और यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग और/अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण, चाहे सक्रिय रूप से अथवा परोक्ष रूप में, अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयंत्र का हिस्सा बनने का दोषी पाया जाता है तो वह इन विनियमों के अनुसार और तत्समय प्रवृत्त किसी दंडिक विधि के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

ख ) प्रवेश की विवरणिका/अनुदेश-पुस्तिका या प्रोस्पेक्टस, चाहे वह प्रिंट फारमेट या इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में हो, में इन पूर्ण विनियमों में मुख्य रूप से प्रिंट किया जाएगा।

बशर्ते कि संस्थान ऐसी प्रवेश की विवरणिका/अनुदेश-पुस्तिका या प्रोस्पेक्टस प्रकाशित करते समय रैगिंग से संबंधित किसी विधि और रैगिंग के परिणाम, जो संस्थान पर लागू हों, पर भी ध्यान आकर्षित करेगी।

लेकिन यह भी कि रैगिंग निरोधी हेल्पलाइन की टेलिफोन संख्या और संस्थान के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की टेलिफोन संख्या जिनमें संस्था के प्रमुख, संकाय के सदस्य, रैगिंग-निरोधी समिति के सदस्य, रैगिंग-निरोधी दस्ते के सदस्य, जिला और उप-मण्डल प्राधिकारी, होस्टल के वार्डन और अन्य संबंधित अधिकारियों अथवा प्राधिकारियों की टेलिफोन संख्या प्रवेश-विवरणिका/अनुदेश पुस्तिका अथवा प्रोस्पेक्टस में प्रकाशित की जाएगी। टेलिफोन नंबरों की यह सूची इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

ग ) यदि कोई संस्थान किसी विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण से संबद्ध है और प्रवेश-विवरणिका/अनुदेश पुस्तिका अथवा प्रोस्पेक्टस में प्रकाशित करता है तो संबद्धकर्ता विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्ध संस्थान इन विनियमों के विनियम 6.1 के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

घ ) प्रवेश, नामांकन या पंजीकरण के आवेदन फार्म में एक शपथपत्र होगा, जो अनिवार्यतः अंग्रेजी और हिन्दी और/अथवा एक उस क्षेत्रीय भाषा में होगा जिसे आवेदक जानता है जैसा कि इन विनियमों के अनुबंध-I में अंग्रेजी भाषा में उपबंधित है, आवेदक इस आशय का एक शपथपत्र भरेगा और हस्ताक्षर करेगा कि उसने इन विनियमों के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उसे दण्डिक विधि और इन विनियमों के अधीन रैगिंग के प्रतिषेध और निर्धारित दंड की जानकारी है और वह इस आशय की भी पुष्टि करेगा कि उसे किसी भी संस्थान से निष्काशित और/अथवा वारित नहीं किया गया है और वह यह भी प्रमाणित करेगा कि वह सक्रिय या परोक्ष रूप से रैगिंग या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरण के किसी कार्य में सम्मिलित नहीं है और यदि वह रैगिंग और/अथवा रैगिंग के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी पाया जाता है तो उस पर इन विनियमों या किसी दण्डिक विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही की जा सकती है और किसी अन्य कार्यवाही के अलावा उसे वारित या निष्काशित किया जा सकता है।

ड.) प्रवेश, नामांकन और पंजीकरण के आवेदन फार्म में एक शपथपत्र होगा, जो अनिवार्यतः अंग्रेजी और हिन्दी और/अथवा एक उस क्षेत्रीय भाषा में होगा जिसे आवेदक के माता-पिता/अभिभावक जानते हैं जैसा कि इन विनियमों के अनुबंध-II में अंग्रेजी भाषा में उपबंधित है, आवेदक के माता-पिता/अभिभावक इस आशय का शपथपत्र भरेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि उन्होंने इन विनियमों के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उन्हें दण्डिक विधि और इन विनियमों के अधीन रैगिंग के प्रतिषेध और निर्धारित दंड की जानकारी है और वह इस आशय की पुष्टि भी करेंगे कि उनकी संतान (आवेदक)

को किसी भी संस्थान से निष्काषित और/अथवा वारित नहीं किया गया है और वे ये भी प्रमाणित करेंगे कि उनकी संतान (आवेदक) सक्रिय या परोक्ष रूप से रैगिंग या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरण के किसी कार्य में सम्मिलित नहीं है और यदि वह रैगिंग और/अथवा रैगिंग के लिए दुष्प्रेरण का दोषी पाया जाता है तो उस पर इन विनियमों या किसी दण्डिक विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही की जा सकती है और किसी अन्य कार्यवाही के अलावा उसे वारित या निष्काषित किया जा सकता है।

- च) प्रवेश के आवेदन पत्र के साथ आवेदक जिस स्कूल अथवा संस्थान में आखिरी बार पढ़ रहा था, उस स्कूल अथवा संस्थान द्वारा जारी किया गया स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र/स्थानांतरण प्रमाणपत्र/प्रवास प्रमाणपत्र/चरित्र प्रमाणपत्र, जो आवेदक के अंतर-व्यक्तित्व/सामाजिक व्यवहार की जानकारी दें, के रूप में दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे जिससे संस्थान उसके बाद आवेदक, यदि उसे प्रवेश मिल जाता है, पर नज़र रखी जा सकती है जिसके व्यवहार पर उक्त दस्तावेज में टिप्पणी दी गई है।
- छ) जो विद्यार्थी ऐसे छात्रावास (होस्टल) में प्रवेश मांगे जो संस्था का भाग है या ऐसे अस्थायी परिसर में रहने का इच्छुक हो जो संस्था का भाग नहीं है या व्यापारिक तौर से संचालित प्राइवेट लॉज या होस्टल में रहने का इच्छुक हो, वह अतिवृत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा जिस पर उसके माता-पिता/अभिभावक प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। ऐसा इन विनियमों के अनुबंध-I व अनुबंध-II में क्रमशः निर्धारित फार्म में किया जाए और इसे वह अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करे।
- ज) संस्था में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले संस्था प्रमुख संस्था में रैगिंग रोकने और रैगिंग करने वालों या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करने वालों की पहचान करने व उन्हें दंडित करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों/एजेंसियों जैसे होस्टल वार्डन, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, माता-पिता/अभिभावक, शिक्षक-वर्ग, जिला प्रशासन, पुलिस की बैठक बुलाएंगे तथा उसे संबोधित करेंगे।
- झ) संस्था व्यापक समुदाय को और विशेषकर विद्यार्थियों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव तथा रैगिंग करने वालों के प्रति संस्था द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से अवगत कराएगी, रैगिंग की घटनाओं पर लागू दण्डिक विधि के उपबंधों को दर्शाने वाले पोस्टर प्रमुख स्थलों पर लगाएगी और इन विनियमों के उपबंधों व तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों एवं तत्संबंधी दण्ड का विवरण सभी विभागों, होस्टलों व अन्य भवनों और ऐसे स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जहां विद्यार्थी सामान्यतः एकत्र होते हैं तथा जिन स्थानों पर रैगिंग की घटनाएं होती हैं।
- ञ) संस्था, मीडिया से अनुरोध करेगी कि वह रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने के कानून, रैगिंग के नकारात्मक पहलुओं और रैगिंग पर रोक लगाने व दोषी पाए गए विद्यार्थियों आदि को किसी भय या पक्षपात के बिना दण्डित करने के संस्था के संकल्प का पर्याप्त प्रचार करें।
- ट) जिन स्थानों पर रैगिंग की घटनाएं घटित होने की आशंका विद्यमान रही है, संस्था उन सभी स्थानों की पहचान करेगी, वहां सही तरीके से रोशनी की व्यवस्था करेगी और वहां गहन निगरानी रखेगी।
- ठ) संस्था अपने परिसरों, विशेषकर रैगिंग की आशंका वाले स्थानों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करेगी, इन विनियमों में संदर्भित रोधी दस्ते से गहन निगरानी करवाएगी और शैक्षणिक सत्र के पहले कुछ महीनों के दौरान असामान्य घंटों (ऑड ऑवर) के दौरान उक्त स्थानों पर स्वयंसेवक, यदि हों, तैनात करेंगी।

- ड ) संस्था, नए शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले अवकाश अवधि का प्रयोग रैगिंग के विरुद्ध प्रचार अभियान प्रारंभ करने के लिए करेगी। ऐसा पोस्टरों, पर्चियों (लीफलेट) और ऐसे अन्य साधनों के जरिए किया जाएगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए वांछनीय या अपेक्षित हों।
- ढ ) संस्था के संकाय/विभाग/इकाईयां शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पर्याप्त समय पहले ही इस विनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लक्ष्य से प्रवेश (इंडक्शन) संबंधी व्यवस्थाएं करेगी जिनमें विद्यार्थियों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समयपूर्व कार्य करना, उक्त आवश्यकताएं ज्ञात करना व तत्संबंधी योजना बनाना सम्मिलित है।
- ण ) प्रत्येक संस्था शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले पेशेवर परामर्शदाता (काउंसलर) अनुबंधित करेगी या उनकी सहायता लेगी ताकि शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के बाद नए विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को परामर्श देने के प्रयोजन के लिए संस्था की आवश्यकता के अनुसार उक्त परामर्शदाता उपलब्ध हो सके।
- त ) संस्था प्रमुख स्थानीय पुलिस व स्थानीय प्राधिकारियों को संस्था में भर्ती विद्यार्थियों द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त व्यापारिक तौर से संचालित प्रत्येक प्राइवेट होस्टल या लॉज की सूचना व व्यौरा देगा और संस्था प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेगा कि रैगिंग रोधी दस्ता उक्त स्थानों में रैगिंग रोकने के लिए पूर्ण चौकसी बरते।

**6.2 संस्था विद्यार्थियों का प्रवेश, भर्ती या पंजीकरण हो जाने पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगी, यथा:-**

- क ) संस्था में भर्ती किए गए प्रत्येक नए विद्यार्थी को मुद्रित लीफलेट दिया जाएगा जिसमें यह उल्लेख किया गया होगा कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता व मार्गदर्शन हेतु उसने किससे संपर्क करना है और साथ ही उसमें इन विनियमों में संदर्भित रैगिंग रोधी हेल्पलाइन, वार्डनों, संस्था प्रमुख रैगिंग रोधी दस्तों व समितियों के सभी सदस्यों सम्बद्ध जिला एवं पुलिस प्राधिकारियों के पते तथा टेलिफोन नम्बर भी लिखे होंगे ताकि विद्यार्थी संबंधित व्यक्ति से किसी भी समय संपर्क कर सकें।
- ख ) संस्था, विनियम 6.2 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट लीफलेट के जरिए नए विद्यार्थियों को उनके प्रवेशन व अभिविन्यास (इंडक्शन एण्ड ओरिएंटेशन) के लिए की गई उस व्यवस्था की जानकारी देगी जिसके जरिए वे विद्यार्थी के तौर पर, संस्था में पूर्ववर्ती वर्षों में भर्ती किए जा चुके विद्यार्थियों के साथ उपयुक्त व प्रभावी रूप से ताल-मेल कायम कर सकते हैं।
- ग ) इन विनियम के विनियम 6.2 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट लीफलेट के माध्यम से नए विद्यार्थियों को, संस्था के वास्तविक विद्यार्थियों के रूप में उन्हें प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें स्पष्ट हिदायत दी जाएगी कि वे अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कुछ भी न करें जिसे करने का आदेश चाहे वरिष्ठ विद्यार्थियों ने दिया हो और रैगिंग की किसी भी कोशिश की जानकारी शीघ्र ही यथास्थिति रैगिंग रोधी दस्ते का वार्डन या संस्था प्रमुख को दी जाए।
- घ ) इन विनियम के विनियम 6.2 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट लीफलेट में संस्था द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों व कार्यक्रमलापों का कैलेंडर निहित होगा ताकि नए विद्यार्थी सरलता से संस्था के शैक्षणिक परिवेश के अनुकूल हो सकें व उससे परिचित हो सकें।

- ड.) संस्था, पहले सप्ताह के बाद या दूसरे सप्ताह के बाद वरिष्ठ विद्यार्थियों के आगमन पर अभिविन्यास कार्यक्रम निम्नलिखित अनुसार नियत करेगी, यथा :-
- i) संयुक्त संवदेनशीलता कार्यक्रम और इन विनियमों के विनियम 6.1 के खंड (ण) में संदर्भित पेशेवर परामर्शमदाता द्वारा नए विद्यार्थियों और वरिष्ठ विद्यार्थियों की काउंसिलिंग करना।
  - ii) नए विद्यार्थियों और वरिष्ठ विद्यार्थियों का संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम जिसे संस्था प्रमुख व रैगिंग रोधी समिति संबोधित करेगी।
  - iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नए विद्यार्थियों और वरिष्ठ विद्यार्थियों को परस्पर संपर्क कायम करने का मंच उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेल व अन्य कार्यक्रम आयोजित करना।
  - iv) छात्रावास में वार्डन सभी विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और वे कॉलेज फैकल्टी के अपने दो कनिष्ठ सहकर्मियों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे अस्थायी समयावधि के लिए निवासी अनुशिक्षक (रेजिडेंट ट्यूटर) बनकर वार्डन की सहायता करें।
  - v) नए विद्यार्थियों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए जहां तक संभव हो सके संकाय सदस्य अपने अपने छात्रावासों (होस्टल) में छात्रावास निवासियों के साथ भोजन करें।
- च) संस्था नए विद्यार्थियों, कनिष्ठ विद्यार्थियों और वरिष्ठ विद्यार्थियों के बीच उचित संपर्क समन्वय सक्रियता से कायम करने, उसे बढ़ाने व इस पर ध्यान रखने के लिए उपयुक्त समितियां गठित करेगी। इनमें पाठ्यक्रम प्रभारी, विद्यार्थी सलाहकार, वार्डन होंगे और कुछ वरिष्ठ विद्यार्थी उसके सदस्य होंगे।
- छ) रैगिंग की किसी घटना के पीड़ित या साक्षी नए या अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे ऐसी घटना की सूचना दें और ऐसी सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- ज) संस्था में आने पर नए विद्यार्थियों के प्रत्येक बैच को छोटे समूहों में बांटा जाएगा और ऐसे प्रत्येक समूह का दायित्व फैकल्टी सदस्य को सौंपा जाएगा जो संस्था में नए विद्यार्थी के सम्मुख आ रही समस्याओं या कठिनाईयों, यदि कोई हो, को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक दिन समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगा और उक्त समस्याओं या कठिनाईयों को दूर करने में नए विद्यार्थी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- झ) नए विद्यार्थियों का समूह जिस फैकल्टी सदस्य को सौंपा गया है, छात्रावासों के वार्डनों के साथ समन्वय कायम करने व उक्त छात्रावासों के जिन कमरों में समूह का/के छात्र रहता है/रहते हैं उन कमरों का आकस्मिक दौरा करने का दायित्व उसी फैकल्टी सदस्य का होगा और वह अपने दायित्व प्रभार के अंतर्गत आने वाले नए छात्रों के साथ अपने संपर्क का विवरण दर्ज करने के लिए डायरी रखेगा।
- ञ) जहां तक संभव हो सके नए विद्यार्थियों को पृथक होस्टल ब्लॉक में ठहराया जाए और जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हों वहां संस्था सुनिश्चित करे कि वार्डन, सुरक्षा गार्ड व संस्था के अन्य स्टाफ द्वारा नए विद्यार्थियों को आवंटित आवास में वरिष्ठ विद्यार्थियों की आवा-जाही की पूर्ण मॉनिटरिंग की जाए।
- ट) संस्था, कक्षाएं समाप्त होने के बाद छात्रावासों में रैगिंग न होने देने के लिए छात्रावास परिसरों में रैगिंग के विरुद्ध हर समय चौकसी रखने की सुनिश्चितता बरतेगी।
- ठ) रैगिंग की किसी भी घटना को संस्था प्रमुख के ध्यान में लाने का दायित्व नए विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक का होगा।

- ड ) संस्था में अध्ययन कर रहा प्रत्येक विद्यार्थी और उसके माता-पिता/अभिभावक, यथास्थिति प्रवेश या पंजीकरण के समय, इन विनियमों के विनियम 6.1 के खंड (घ) (ड.) (च) के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान, विनिर्दिष्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- ढ ) प्रत्येक संस्था उपर्युक्त विनियम 6.2 के खंड (ड) में संदर्भित शपथ पत्र प्रत्येक विद्यार्थी से प्राप्त करेगी व उसका उपयुक्त रिकार्ड रखेगी एवं उसे सुरक्षित रखने की सुनिश्चितता बरतेगी जिसमें शपथ-पत्र की प्रतियां इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में बनाना भी शामिल है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जब आयोग या कोई भी परिषद् या संस्था या संबद्ध विश्वविद्यालय या कोई प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन मांग करे तो उक्त शपथ पत्र सरलता से उपलब्ध कराया जा सकता हो।
- ण ) प्रत्येक विद्यार्थी अपने पंजीकरण के समय संस्था को अध्ययनकाल की समयावधि के निवास स्थान से संबंधित सूचना संस्था को देगा और यदि विद्यार्थी ने अपने निवास का स्थान तय न किया हो या उसे बदलना चाहता हो तो वह अपने निवास स्थान को तय कर दिए जाने के तत्काल बाद उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा ऐसा विशेषकर व्यापारिक तौर से संचालित उस प्राइवेट लॉज या होस्टल के संबंध में किया जाएगा जिसमें वह निवास कर रहा है।
- त ) संस्था प्रमुख, विनियम 6.2 के खंड (ण) के तहत विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर क्षेत्र विभाजित करेगा जिसका दायित्व फैकल्टी सदस्य को सौंपा जाएगा ताकि यह फैकल्टी सदस्य निगरानी रख सके और कैम्पस से बाहर या संस्थान में आने के मार्ग में विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त परिवहन माध्यमों में, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, रैगिंग की किसी घटना की सूचना दे सकें।
- थ ) संस्था प्रमुख, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर उन विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को, जिन्होंने संस्था में अपना प्रथम वर्ष पूरा कर लिया है पत्र भेजेगा जिसके जरिए उन्हें इन विनियमों, रैगिंग पर रोक लगाने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, तत्संबंधी दंड व दाण्डिक विधियों के तहत नियत दंड की जानकारी दी जाएगी और साथ ही उनसे अपील भी की जाएगी कि वे अपनी संतान को समझाएं कि वह अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में संस्था में वापस आने के बाद रैगिंग का कोई कृत्य न करे।

### 6.3 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित निकाय गठित करेगी ; यथा -

- क ) प्रत्येक संस्था एक समिति गठित करेगी जिसे रैगिंग रोधी दस्ता कहा जाएगा जिसे संस्था प्रमुख नामित करेगा और वही उसका अध्यक्ष होगा। इस समिति में सिविल व पुलिस प्रशासन, स्थानीय मीडिया, युवाओं संबंधी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, फैकल्टी सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता/अभिभावकों के प्रतिनिधि, नए विद्यार्थियों व वरिष्ठ विद्यार्थियों, अध्यापनेतर स्टाफ के प्रतिनिधि होंगे। ये सदस्य विभिन्न स्तरों के होंगे और इनमें महिला व पुरुष दोनों ही शामिल होंगे।
- ख ) इन विनियमों व रैगिंग के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना और संस्था में रैगिंग रोकने के लिए रैगिंग रोधी दस्ते के कार्य का मॉनिटरन करना व उस पर निगरानी रखना रैगिंग रोधी समिति का कर्तव्य होगा।
- ग ) प्रत्येक संस्था एक छोटा निकाय भी गठित करेगी जिसे रैगिंग रोधी दस्ता कहा जाएगा इसे संस्था प्रमुख नामित करेगा और इसमें इस प्रकार का प्रतिनिधित्व होगा जिसे चौकसी बरतने, निगरानी रखने व गश्त लगाने के कार्यों के लिए आवश्यक समझा गया हो तथा यह दस्ता प्रत्येक समय गश्त पर रहेगा और सजग व सक्रिय रहेगा। परंतु रैगिंग रोधी दस्ते में कैम्पस समुदाय के विभिन्न सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा, उसमें बाहर से कोई प्रतिनिधि नहीं होगा।



- घ ) जब कहा जाए तब रैगिंग रोधी दस्ते का कर्तव्य होगा कि वह छात्रावास व उन अन्य स्थानों पर आकस्मिक छापा मारे जहां रैगिंग की आशंका या संभावना है और उसे उन स्थानों का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त होगी।
- ड.) जब संस्था प्रमुख या यथास्थिति फैकल्टी का कोई सदस्य या स्टाफ का कोई सदस्य या कोई विद्यार्थी या कोई माता-पिता या अभिभावक या सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति रैगिंग की घटना की जानकारी दे तो घटना स्थल पर उसकी जांच करना भी रैगिंग रोधी दस्ते का कर्तव्य होगा ; सिफारिशों सहित जांच रिपोर्ट विनियम 8.1 के तहत कार्यवाही के लिए रैगिंग रोधी समिति को प्रस्तुत की जाएगी।  
परंतु रैगिंग रोधी दस्ता निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए और रैगिंग के अभियुक्त विद्यार्थी/विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देने के बाद तथा अन्य साक्षियों को अपने समक्ष तथ्य, दस्तावेज व रैगिंग से संबंधित राय प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद और यथा अपेक्षित अन्य संगत सूचना पर विचार करने के बाद उक्त जांच करेगा।
- च) प्रत्येक संस्था इन विनियमों के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर परामर्शदाता (मैटर) प्रकोष्ठ बनाएगा जिसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष में नए विद्यार्थियों का मैटर (परामर्शदाता) बनने के इच्छुक विद्यार्थी होंगे, और मैटर (परामर्शदाता) के उतने स्तर व सोपान होंगे जितनी संस्था में बैचों की संख्या है। ऐसा छह नए विद्यार्थियों के लिए एक मैटर और छोटे स्तर के छह मैटरों के लिए उच्च स्तर के एक मैटर के हिसाब से किया जाएगा।
- छ) प्रत्येक विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण एक निकाय गठित करेगा जिसे रैगिंग विषयक मॉनिटरन प्रकोष्ठ कहा जाएगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण के अधिकार में शामिल संबद्ध कॉलेजों व संस्थाओं से समन्वय स्थापित करेगा और मॉनिटरन प्रकोष्ठ रैगिंग रोधी समितियों, रैगिंग रोधी दस्तों व संस्थाओं के परामर्शदाता (मैटरिंग) प्रकोष्ठ के कार्यकलापों के संबंध में संस्था प्रमुख से रिपोर्ट मांगेगा।
- ज) मॉनिटरन प्रकोष्ठ, रैगिंग रोधी उपायों का प्रचार करने, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में माता-पिता/अभिभावकों व विद्यार्थियों से रैगिंग न करने या विनियमों का उल्लंघन करने की वजह से दण्डित होने की रजामंदी के बारे में शपथ-पत्र लेने के लिए संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी समीक्षा करेगा ; और संस्था स्तर पर रैगिंग रोधी उपाय लागू करने के कार्य को सफल करने के लिए कानून या अध्यादेशों या उपविधियों को संशोधित करने हेतु विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों की ओर से कार्यवाही शुरू करने के लिए मुख्य प्रस्तावक के तौर पर भी कार्य करेगा।

#### 6.4 प्रत्येक संस्था को निम्नलिखित अन्य उपाय करने चाहिए :-

- क ) प्रत्येक छात्रावास या जहां-जहां छात्र रहते हैं और जो संस्था का भाग है, वहां पर अनुशासन बनाए रखने और छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए निर्देशित एवं नियंत्रित दोनों पहलुओं को प्रतिबिम्बित करने वाले पद के लिए निर्धारित किए गए पात्रता मानदण्डों के अनुसार संस्थान द्वारा एक पूर्णाकालिक संरक्षक (वार्डन) नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि कक्षाओं के बाहर छात्रों से विनम्र भाव में परामर्श एवं बातचीत कर सके ; तथा जो छात्रावास में या कम से कम उसके पास ही किसी अन्य स्थान में रहता हो।

- ख ) संरक्षक के काम : प्रत्येक समय टेलीफोन एवं संप्रेषण के आम माध्यमों से संपर्क किया जा सकता हो और वह प्रत्येक समय उपलब्ध होना चाहिए। संस्थान को इस प्रयोजनार्थ संरक्षण को एक मोबाइल फोन प्रदान किया जाना चाहिए जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र को होनी चाहिए।
- ग ) संस्थान को संरक्षक की शक्तियों की समीक्षा करनी चाहिए और उनको उपयुक्त समय से बढ़ाना चाहिए तथा छात्रावास में तैनात सुरक्षाकर्मी संरक्षक के नियंत्रणाधीन होने चाहिए तथा कार्य का आकलन संरक्षक द्वारा किया जाना चाहिए।
- घ ) इस विनियमावली के विनियम 6.1 के खंड (ण) के अंतर्गत संदर्भित पेशेवर परामर्शदाताओं को आगामी जीवन के लिए तैयार करने के लिए विशेषकर छात्रावास में उसके जीवन के संबंध में प्रवेश के समय परामर्श की अपेक्षा रखने वाले नए विद्यार्थी और/या किसी अन्य विद्यार्थी के परामर्श देने और परामर्श सत्र में यथासंभव माता-पिता एवं अध्यापकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- ड.) संस्था को विद्यार्थियों के लिए दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यमों, परामर्श पत्रों, कार्यशालाओं, चित्रकारी एवं डिजाइन प्रतिस्पर्धाओं एवं अन्य उचित उपायों के माध्यम से रैगिंग रोधी व्यापक प्रचार करना चाहिए।
- च) किसी भी छात्र या किसी अन्य व्यक्ति को रैगिंग रोधी हेल्प लाइन से संपर्क करने के लिए प्रत्येक संस्थान को कक्षाओं, सम्मेलन कक्षों, पुस्तकालयों या ऐसे अन्य स्थानों को छोड़कर जहां पर संस्थान द्वारा टेलिफोन का प्रयोग वर्जित है, छात्रावासों एवं परिसरों में मोबाइल फोन एवं सार्वजनिक टेलीफोन का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- छ) संस्था के संकाय एवं इसके गैर-शैक्षणिक स्टाफ, जिसमें प्रशासनिक स्टाफ, अनुबंध पर कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड एवं संस्था में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के कर्मचारी भी शामिल हैं को रैगिंग की बुराईयों, इसको रोकने तथा इसके परिणामों आदि के प्रति अनुग्राही होना चाहिए।
- ज) संस्था को संस्था के प्रत्येक कर्मचारी, जिसमें संस्था के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक सदस्य, परिसर में कैंटीन संचालित करने वाले या गार्ड के रूप में तैनात कर्मचारी अथवा भवन/बगीचे की साफ-सफाई या रखरखाव करने वाले कर्मचारी और संस्था में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के कर्मचारी शामिल हैं से यह वचनबद्धता प्राप्त करनी चाहिए कि वह रैगिंग से संबंधित प्रत्येक मामले जो उसकी जानकारी में आता है, की जानकारी उनको देगा।
- झ) संस्था को रैगिंग की घटनाओं की जानकारी देने वाले स्टाफ के सदस्यों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अपने कर्मचारियों की सेवा नियमावली में प्रावधान करना चाहिए जो कि उनके सेवा रिकार्ड का एक भाग बन जाएगा।
- ञ) संस्था को कैंटीन एवं भोजनालय (मैस) के कर्मचारियों, चाहे वह संस्था का कर्मचारी हो अथवा यह सेवा प्रदान करने वाले किसी सेवा प्रदाता का कर्मचारी हो, अथवा उनके नियोजक हों, जैसा भी मामला हो, को आवश्यक अनुदेश देने चाहिए कि वे अपने कार्यक्षेत्र की कड़ी निगरानी रखें और रैगिंग की घटनाओं की संस्थान के प्रमुख या रैगिंग रोधी दल के सदस्यों अथवा रैगिंग रोधी समिति के सदस्यों या संरक्षकों, जैसा भी आवश्यक हो, को सूचना दें।
- ट) किसी भी स्तर पर उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने वाले समस्त विश्वविद्यालयों/परीक्षा प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में अनुदेश देने वाले या अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले संस्थानों में रैगिंग रोधी एवं प्रासंगिक मानव अधिकारों की प्रशंसा से संबंधित अनुदेश भी शामिल हैं। इसके साथ-साथ शारीरिक दण्ड के विरुद्ध दुप्राहिता और छात्रों में

परस्पर घौस जमाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने संबंधी अनुदेश शामिल होने चाहिए जिससे कि प्रत्येक अध्यापक कम से कम परामर्श अवस्था की प्रारंभिक स्थिति से निपटने में समक्ष हो सके।

- ठ) शैक्षणिक वर्ष के प्रथम तीन माह के दौरान प्रत्येक पखवाड़े में नए छात्रों के बीच पृथक-पृथक यादृष्टिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि यह सत्यापित किया जा सके और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जा सके कि संस्था में वास्तव में रैगिंग नहीं की जा रही और इस प्रकार के सर्वेक्षण करने के लिए संस्था की अपनी स्वयं की कार्य प्रणाली तैयार करने में सहायता मिल सके।
- ड) संस्था को छात्र द्वारा संस्था छोड़ते समय जारी किए जाने वाले प्रवास/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में उसके सामान्य आचरण एवं व्यवहार से संबंधित प्रविष्टि करने के अतिरिक्त इस आशय का भी उल्लेख करना चाहिए कि क्या छात्र को कभी रैगिंग करने या उसके लिए उकसाने के लिए दंडित किया गया है और क्या छात्र ने संस्थान में अपने अध्ययन के दौरान निरंतर हिंसक या उग्र व्यवहार किया है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है।
- ढ) उपर्युक्त विहित निकायों के अधिकारियों या सदस्यों की बाध्यताओं एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित इन विनियमों में उल्लेखित किसी बात के होते हुए भी संस्था के संकाय के सदस्यों एवं कर्मचारियों, चाहे वह नियमित हो या अस्थायी, एवं संस्थान में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों सहित समस्त स्तरों के अधिकारियों तथा प्राधिकारियों या कृत्यकारियों सहित का यह सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए कि उनकी जानकारी में आने वाली रैगिंग की किसी भी घटना को रोके या उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करे।
- ण) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी घटक या परीक्षा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, से संबद्ध संस्थाओं के अध्यक्षों को शैक्षणिक वर्ष के प्रथम तीन माह के दौरान इन विनियमों के अधीन रैगिंग-रोधी उपायों के अनुपालन की स्थिति से संबंधित एक साप्ताहिक रिपोर्ट और उसके पश्चात इस प्रकार की स्थिति की एक मासिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण, जिससे फार्मैसी संस्थान संबद्ध है, के उप-कुलपति को प्रस्तुत करनी चाहिए।

## 7. संस्था के अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

रैगिंग-रोधी दल की संस्तुति की प्राप्ति पर या रैगिंग की घटना होने से संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर संस्थान के अध्यक्ष को तत्काल यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या कोई मामला दण्ड-विधि के अंतर्गत आता है और यदि हां तो क्या उसके स्वयं के द्वारा या इस परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा प्राधिकृत रैगिंग-रोधी समिति के किसी सदस्य के माध्यम से इस प्रकार की सूचना या संस्तुति प्राप्त होने के चौबीस घंटे के अन्दर निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपयुक्त दंड उपबंधों के अंतर्गत पुलिस या स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है ; अर्थात्

- i) रैगिंग के लिए दुष्प्रेरण ;
- ii) रैगिंग के लिए आपराधिक षडयंत्र रचना ;
- iii) रैगिंग के दौरान गैर कानूनी रूप से एकत्र होना एवं दंगा करना ;
- iv) रैगिंग के दौरान सार्वजनिक रूप से अशोभिनीय कार्य करना ;
- v) रैगिंग के माध्यम से सभ्य व्यवहार एवं नैतिकता का उल्लंघन ;
- vi) किसी के शरीर को घायल करना या चोट पहुंचाना अथवा दुख पहुंचाना ;

- vii) सदोष अवरोध ;
- viii) सदोष परिरोध ;
- ix) आपराधिक बल का प्रयोग करना ;
- x) प्रहार करना या किसी प्रकार का लैंगिक अपराध करना अथवा अप्राकृतिक अपराध करना ;
- xi) जबर्दस्ती वसूली
- xii) आपराधिक अतिचार ;
- xiii) किसी संपत्ति के विरुद्ध अपराध करना ;
- xiv) आपराधिक अभिन्नास ;
- xv) पीड़ित व्यक्ति(यों) के विरुद्ध उपर्युक्त कोई एक या समस्त अपराध करने का प्रयत्न करना ;
- xvi) पीड़ित व्यक्ति या पीड़ितों के विरुद्ध उपर्युक्त किसी एक या समस्त अपराध करने की धमकी देना ;
- xvii) शारीरिक या मनोवैज्ञानिक अपमान करना ;
- xviii) रैगिंग की परिभाषा में आने वाले अन्य समस्त अपराध ;

बशर्ते कि संस्थान के अध्यक्ष द्वारा रैगिंग की घटना होने की जानकारी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति या प्राधिकारियों, जैसी भी स्थिति हो, को तत्काल दी गई हो।

बशर्ते यह भी कि पुलिस/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना संस्थान इन विनियमों के खण्ड 8 के अंतर्गत शुरू की गई अपनी स्वयं की जांच तथा अन्य उपायों को जारी रखेगा और इस प्रकार के प्रतिकारी उपाय करने प्रारंभ करेगा और इसे तत्काल तथा रैगिंग की घटना होने के सात दिनों की अवधि में पूरा करेगा।

## 8. दंड

### 8.1 संस्थान के स्तर पर :-

संस्थान द्वारा गठित की गई रैगिंग रोधी समिति के अनुसार अपराध की प्रवृत्ति एवं महत्त्व के आधार पर रैगिंग के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए संस्थान के स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक संभावित दंड दिया जाएगा :

- 8.1.1 कक्षाओं में उपस्थित रहने एवं शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबन।
- 8.1.2 छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति एवं अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना।
- 8.1.3 किसी भी परीक्षा/जांच या किसी अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वर्जित करना।

- 8.1.4 परीक्षा परिणाम को रोकना।
- 8.1.5 संस्थान की ओर से किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा, टूर्नामेंट, युवा सम्मेलन आदि में प्रतिनिधित्व करने से वर्जित करना।
- 8.1.6 छात्रावास से निलंबन/बाहर निकालना।
- 8.1.7 प्रवेश निरस्त करना।
- 8.1.8 लिए गए निर्णयों के अनुसार संस्था से किसी नियत अवधि के लिए निष्काषित करना।
- 8.1.9 संस्था से बाहर निकालना और परिणामतः किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में प्रवेश के लिए वर्जित करना।
- 8.1.10 25,000/- रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाना।
- 8.1.11 सामूहिक दंड : जब रैगिंग करने वाले या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित न हो सके तो संस्थान सामूहिक दंड देगा।

## 8.2 निम्नलिखित से संबद्ध संस्थाओं के संबंध में विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण स्तर पर :-

यदि कोई संस्थान इन विनियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है और रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में विफल रहता है तो विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण उस पर निम्नलिखित शक्तियों में से कोई एक या एक से अधिक शक्तियों को लगाएगा :-

- 8.2.1 संबद्धता और/या इसके फलस्वरूप प्रमुख अन्य विशेषाधिकारों को वापस लेना।
- 8.2.2 ऐसी संस्था के फार्मैसी पाठ्यक्रम में भाग ले रहे किसी छात्र को विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण की किसी उपाधि/डिप्लोमा को प्रदान करने के लिए उस संस्था को प्रतिबन्धित करना।
- 8.2.3 विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण द्वारा उसे आबंटित अनुदान यदि कोई हो तो, को रोकना।
- 8.2.4 संस्था को विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की गई किसी भी अनुदान राशि, यदि कोई हो तो, को रोकना।
- 8.2.5 विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण की शक्तियों के अंतर्गत कोई अन्य उपयुक्त शक्ति।

## 8.3 प्रबन्धन के स्तर पर :-

संस्था का प्राधिकरण/प्रबन्धन (न्यास, सोसायटी आदि) विशेषकर संस्थान का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि संस्थान में रैगिंग की कोई घटना घटित नहीं हुई। यदि रैगिंग की कोई घटना घटित होती है तो प्रबन्धन/अध्यक्ष को इस व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एवं उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए जिसके/जिनके कर्तव्यों की अवहेलना के कारण यह घटना घटित हुई। प्राधिकारी संस्थान के अध्यक्ष को नियुक्त करने वाला नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी अध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल एवं उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है।

**8.4 भारतीय भेषजी परिषद् (पी.सी.आई.) के स्तर पर :-**

यदि कोई संस्थान रैगिंग रोकने में विफल रहता है तो भारतीय भेषजी परिषद् उस पर निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक शक्तियां लगा सकता है :-

- 8.4.1 भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 13 के अंतर्गत संस्थान के विरुद्ध अनुमोदन को वापस लेने संबंधी कार्यवाही शुरू करना।
- 8.4.2 संस्थान की प्रवेश क्षमता को केन्द्रीय परिषद् की सहमति के अनुसार कम करना।
- 8.4.3 अगले आदेश होने तक संस्थान में नई प्रवेश प्रक्रिया को रोकना।
- 8.4.4 अनुमोदन (मान्यता) के नवीनीकरण को रोकना।
- 8.4.5 संबंधित संस्थान पर लगाई गई शक्तियों से संबंधित सूचना को समस्त संबंधित संस्थाओं की जानकारी के लिए भारतीय भेषजी परिषद् की वेबसाइट पर डालना।

**9. भारतीय भेषजी परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना**

प्रत्येक संस्थान को विहित प्रारूप (अनुलग्नक - III) में अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित समय अनुसूची के अनुसार निबन्धक-एवं-सचिव, भारतीय भेषजी परिषद्, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड़, नई दिल्ली - 110 002 को प्रस्तुत करनी चाहिए।

- 9.1 इन विनियमों के विनियम 6 के कार्यान्वयन के लिए संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही को इंगित करते हुए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक, जिस वर्ष में छात्रों को प्रवेश दिए गए, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसा न करने पर चूककर्ता संस्थान के विरुद्ध विनियम 8.4 में संदर्भित कार्यवाही की जाएगी ; और
- 9.2 पूर्व शैक्षणिक सत्र के संबंध में लिखित प्रारूप (अनुलग्नक - III) में प्रत्येक कॉलम में अपेक्षित सूचना इंगित करते हुए प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसा न करने पर चूककर्ता संस्थान के विरुद्ध विनियम 8.4 में उल्लेखित कार्यवाही की जाएगी।

अर्चना मुद्गल

निबन्धक-एवं-सचिव

भारतीय भेषजी परिषद्

संयुक्त परिषद् भवन

(कंभाइंड काउंसिल्स भवन)

कोटला रोड़, एवान-ए-गालिब मार्ग,

पोस्ट बॉक्स संख्या-7020

नई दिल्ली-110002

## संलग्नक - I

**प्रार्थी/छात्र द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध**  
(शपथ-आयुक्त द्वारा विधिवत साक्षात्कृत)

1. मैंने \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ रैगिंग रोकने  
(नाम) (नाम)  
से संबंधित कानून और इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं और पूरी तरह से समझ लिए हैं।
2. मुझे फार्मैसी कॉलेजों में रैगिंग की धमकी पर नियंत्रण रोकने से संबंधित भारतीय भेषजी परिषद् के 2012 के विनियमों की प्रति प्राप्त हो गई है और मैंने उसे सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है।
3. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूँ कि :
  - मैं ऐसा कोई व्यवहार या कार्य नहीं करूंगा जो रैगिंग के अंतर्गत आता हो।
  - मैं रैगिंग में किसी भी रूप में भाग नहीं लूंगा या उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा या उसे बढ़ावा नहीं दूंगा।
  - मैं किसी को भी शारीरिक या मानसिक या अन्य कोई क्षति पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करूंगा।
4. मैं एतद् द्वारा यह सहमति देता हूँ कि यदि मैं रैगिंग में किसी भी प्रकार से दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे उपर्युक्त भारतीय भेषजी परिषद् (पी.सी.आई.) के विनियमों के उपबंधों और/या प्रवृत्त विधि (नियम) के अनुसार दंडित किया जाए।
5. मैं एतद् द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे किसी भी संस्था द्वारा प्रवेश से निकाला या वर्जित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

इस पर \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्ष को हस्ताक्षर किया गया।

## संलग्नक - II

**माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध**  
(शपथ-आयुक्त द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित)

1. मैंने \_\_\_\_\_ पिता/माता/अभिभावक \_\_\_\_\_ रैगिंग न करने से  
(नाम) (छात्र का नाम)  
संबंधित कानून और इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश तथा फार्मैसी कॉलेजों में रैगिंग की धमकी पर नियंत्रण रोकने से संबंधित भारतीय भेषजी परिषद् के 2012 के विनियम सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं और पूरी तरह से समझ लिए हैं।
2. मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड रैगिंग में किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होगा/होगी।
3. मैं एतद् द्वारा यह सहमति देता हूँ कि यदि वह रैगिंग में किसी भी प्रकार से दोषी पाया जाता है/ पाई जाती है, तो उसे उपर्युक्त भारतीय भेषजी परिषद् (पी.सी.आई.) के विनियमों के उपबंधों और/या प्रवृत्ति विधि (नियम) के अनुसार दंडित किया जाए।

हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्ष को हस्ताक्षरित ।

नाम :

पता:



## संलग्नक - III

शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग रोकने के उपायों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर निगरानी रखने का प्रोफार्मा

क्रम संख्या	संस्था का नाम और पूरा पता व टेलिफोन नम्बर	
	प्राचार्य/डीन/संकायाध्यक्ष का नाम तथा उनसे सीधे संपर्क करने के नम्बर	
	कार्यवाही	
1.	क्या रैगिंग रोधी दस्ते गठित किए गए थे ?	हां/नहीं
2.	क्या रैगिंग रोधी समिति गठित की गई थी ?	हां/नहीं
3.	क्या विवरण पत्रिका (प्रोस्पैक्टस) में रैगिंग रोकने की संभावित कार्यवाही का उल्लेख किया गया है ?	संक्षेप में उल्लेख करें (विवरण पत्रिका की प्रति संलग्न की जाए)
4.	क्या संपर्क किए जाने वाले प्राधिकारियों के नाम टेलीफोन नम्बर प्रचारित किए गए हैं/नए प्रवेशार्थियों को उपलब्ध कराए गए हैं।	- उपरोक्त -
5.	क्या छात्रावास में समय पर रिपोर्ट करने के लिए छात्रों को आसानी से फोन तक (सैल और लैंडलाइन) पहुंचने दिया जाता है।	- उपरोक्त -
6.	क्या वरिष्ठ छात्रों से परामर्श लिया गया।	- उपरोक्त -
7.	क्या नए प्रवेशार्थियों (छात्रों) से परामर्श लिया गया।	- उपरोक्त -
8.	क्या नए विद्यार्थियों के लिए अभिविन्यास अनुकूलन पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं।	- उपरोक्त -
9.	रैगिंग रोधी दस्ते	9 (क) गठन की तारीख 9 (ख) सदस्यों के नाम व उनके संपर्क नम्बर 9 (ग) मारे गये छात्रों की संख्या 9 (घ) मारे गये छात्रों की अवधि 9 (ङ.) आकस्मिक छापे 9 (च) दस्ते द्वारा किए गए अन्य उपाय 9 (छ) पता लगाए गए रैगिंग के मामलों की संख्या 9 (ज) रैगिंग रोकने के लिए की गई अनुवर्ती कार्यवाही।

10.	रैगिंग रोधी समिति	10 (क) गठन की तारीख 10 (ख) सदस्यों के नाम व उनके संपर्क नम्बर 10 (ग) मारे गये छात्रों की संख्या 10 (घ) मारे गये छात्रों की अवधि 10 (ङ.) आकस्मिक छापे। 10 (च) समिति द्वारा किए गए अन्य उपाय 10 (छ) पता लगाए गए रैगिंग के मामलों की संख्या 10 (ज) रैगिंग रोकने के लिए की गई अनुवर्ती कार्यवाही।
11.	की गई जांच	10 (क) निलंबन 10 (ख) निष्कासन 10 (ग) बहिष्कार
12.	दिया गया दंड	
13.	संस्था द्वारा दर्ज (लॉज) की गई एफ.आई.आर. की संख्या	
14.	क्या कॉलेज में प्रवेश से पहले सभी छात्रों से वचनबंध लिया गया है ? संलग्नक - I के भाग I के अनुसार)	हां/नहीं
15.	क्या कॉलेज में प्रवेश से पहले सभी पिता/माता/अभिभावक से वचनबंध लिया गया है ? संलग्नक - 1 के भाग II के अनुसार)	हां/नहीं

प्राचार्य के हस्ताक्षर मोहर सहित  
 अर्चना मुद्गल  
 निबन्धक-एवं-सचिव

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 23rd July 2012

No. A & S-3/2012-13—In pursuance of Section 34(2) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959 and Regulation 39(3) of the Subsidiary Banks General Regulations 1959, in the absence of the Chairman of State Bank of India, Shri Sharad Sharma, Managing Director, State Bank of Mysore, is generally authorized to preside over the meetings of the Executive Committee of Board of Directors of the Bank with effect from the date he takes over charge.

PRATIP CHAUDHURI

Chairman

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kolkata-700071, the 24th April 2012

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

3ECA/4/1/2011-2012 in pursuance of regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(C) of The Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the register of members of this Institute with effect from 1st October 2011 on account of non-payment of prescribed fees, the names of the following persons :-

S.No.	MRN	Member Name & Place	S.No.	MRN	Member Name & Place
1.	001603	Mr. Gupta Madan Mohan Kolkata	16.	006826	Mr. Mallick Santi Ram Kolkata
2.	002415	Mr. Pande Shri Nath Howrah	17.	006906	Mr. Sen Gupta Tapan Kumar Kolkata
3.	002767	Mr. Chaudhuri Ananta Brata Kolkata	18.	006991	Mr. Sharma Purushottam Kolkata
4.	002903	Mr. Manishi Kumar Deb Kolkata	19.	007116	Mr. Sarkar Bimal Chandra Kolkata
5.	003079	Mr. Chatterjee Ajit Kumar London	20.	007483	Mr. Sen Rabindra Narayan Kolkata
6.	003497	Mr. Pal Sudhir Chandra Kolkata	21.	007494	Mr. Dey Ajit Kumar London
7.	003948	Mr. Arora Ratan Lal Kolkata	22.	007956	Mr. Chakrabarti Siddheswar Kolkata
8.	004381	Mr. Sen Arun Kumar Kent	23.	008758	Mr. Ghose Asit Kumar Kolkata
9.	004602	Mr. Banerjee Subal Chandra Kolkata	24.	008856	Mr. Asutosh Sen Kolkata
10.	004668	Mr. Saha Bejoy Krishna Kolkata	25.	010162	Mr. Abhash Chandra Bhattacharyya Kolkata
11.	005308	Mr. Mahansaria Shyam Sunder Bangkok	26.	011079	Mr. Kaserá Sushil Kumar Kolkata
12.	005376	Mr. Basu Hiralal Kolkata	27.	011353	Mr. Dutta Gupta Amalendu Kolkata
13.	005388	Mr. Saha Upendra Chandra Kolkata	28.	012061	Mr. Agarwal Dayanand Kolkata
14.	006201	Mr. Paul Surjya Kanta Kolkata	29.	012235	Mr. Agarwal Madan Lal Kolkata
15.	006691	Mr. Dey Raghunath Kolkata	30.	012676	Mr. Ganguly B K Jalpaiguri

31.	013724	Mr. Das Subhendu Bikash Kolkata	52.	050578	Mr. Bandyopadhyay Bimal Kumar Kolkata
32.	015325	Mr. Gopalka Suresh Kumar Kolkata	53.	050592	Mr. Mitra Supriyo Kolkata
33.	015718	Mr. Jaidka Vijay Krishan Kolkata	54.	050718	Mr. Ray Prasanta Kumar Gabrone
34.	015739	Mr. Som Mihir Kumar Coppet	55.	050721	Mr. Tewary Mukesh Kumar Kolkata
35.	016082	Mr. Ranjan Chakraborty Kolkata	56.	050945	Mr. Bandyopadhyay Biplob Kanti Kolkata
36.	016454	Mr. Bhalotia Jag Mohan Kolkata	57.	050952	Mr. Samar Bose Kolkata
37.	017061	Mr. Govind Kanodia Kolkata	58.	051088	Mr. Dutt Subir Kolkata
38.	017067	Mr. Shyamal Kumar Mukherjee Kolkata	59.	051269	Mr. Chakraborty Arindam Kolkata
39.	017234	Mr. Das Haralal Serampore	60.	051310	Mr. Das Satrajit Kolkata
40.	017987	Mr. Guha Roy Somnath Kolkata	61.	051396	Mr. Lahiri Arup Kumar Kolkata
41.	022391	Mr. Srinivasan A L Agartala	62.	051418	Mr. Ray Suhrit Kolkata
42.	024279	Ms. Deb Uma Kolkata	63.	051488	Mr. Ghosh Brotindra Nath Ontario
43.	040022	Ms. Esmail Mehr Afroze Dawood Kolkata	64.	051507	Mr. Chowdhury Sugato Kolkata
44.	044821	Mr. Dey Asish Kumar Kolkata	65.	051815	Mr. Gomes Clement Kolkata
45.	050027	Mr. Rajat Dasgupta Kolkata	66.	051934	Dr. Swapan Kanta Bose Chowdhury Kolkata
46.	050052	Mr. Anjan Sircar Kolkata	67.	051969	Mr. Ohri Tarun Dubai
47.	050167	Mr. Shyamal Baran Chattaraj Kolkata	68.	052097	Dr. Sengupta Prabal Kumar Ontario
48.	050407	Mr. Jain Daulat Ram Kolkata	69.	052101	Mr. Goel Sushil Kumar Port Blair
49.	050568	Mr. Kahaly Amitava Guwahati	70.	052109	Mr. Kapur Shiv Raj Kolkata
50.	050569	CA. Biplab Kumar Saha Kolkata	71.	052121	Mr. Banerjee Somsuvro Kolkata
51.	050570	Mr. Mrinal Kanti Das Kolkata	72.	052144	Mr. Dutta Partha Kolkata

73.	052202	Mr. Das Syamal Kumar Santipur	94.	053507	Mr. Roy Kishore Chandra Kolkata
74.	052345	Mr. Jhunjhunwala Rajesh Kolkata	95.	053522	Mr. Basu Saibal Muscat
75.	052387	Mr. Patodia Sanjoy Kumar Kolkata	96.	053539	Mr. Nirmal Kumar Lunawat Kolkata
76.	052393	Mr. Sah Krishna Prasad Agartala	97.	053587	Mr. Agarwal Vijay Kumar Kolkata
77.	052400	Mr. Chatterjee Bhargav Kolkata	98.	053890	Ms. Raman Nandita New South Wales
78.	052437	Mr. Dhar Biswanath Kolkata	99.	054044	Mr. Sabeeh Ahmad Kolkata
79.	052457	Mr. Agrawal Niranjana Prasad Kolkata	100.	054048	Mr. Behera Kishore Chandra Bhubaneswar
80.	052498	Mr. Kalyan Biswas Kolkata	101.	054072	Mr. Bose Amit Dubai
81.	052777	Mr. Rajesh Kumar Jhavar Kolkata	102.	054079	Mr. Das Gouranga Kolkata
82.	052810	Mr. Jain Srawan Kumar Kolkata	103.	054172	Mr. Agarwal Ashok Kumar Howrah
83.	052974	Mr. Panda Bibekananda Kolkata	104.	054194	Mr. Narayan Ramesh Kolkata
84.	053018	Mr. Sharma Chandra Prakash Kolkata	105.	054233	Mr. Agarwal Ajay Howrah
85.	053056	Mr. Pereira Jeffrey Kolkata	106.	054262	Mr. Venkatramani Vishwanathan Kolkata
86.	053167	Mr. Dutta Biswajit Kolkata	107.	054266	Mr. Khetan Anand Kumar Kolkata
87.	053169	Mr. Shree Mohan Hamirbasia Kolkata	108.	054270	Mr. Kumar Man Mohan Kolkata
88.	053187	Mr. Prusty S Manmatha Rao Angul	109.	054301	Mr. Kanoria Sunil Kolkata
89.	053228	Mr. Kedia Bishnu Kumar Kolkata	110.	054321	Mr. Sahu Surendra Kumar Jagatsinghpur
90.	053245	Mr. Mihir Chatterjee Kolkata	111.	054324	Mr. Baheti Subhash Chandra Kolkata
91.	053278	Mr. Thakore Purnendu R Kolkata	112.	054327	Mr. Bani Prasad Acharya Bhubaneswar
92.	053372	Mr. Agrawal Prakash Kumar Kolkata	113.	054358	Mr. Agrawal Kailash Kumar Kolkata
93.	053502	Mr. Ramesh S Georgia	114.	054446	Mr. Sahoo Ajaya Kumar Bhubaneswar

115.	054456	Mr. Halan Sushil Kumar Kolkata	136.	055724	Mr. Chaudhuri Subrata Guwahati
116.	054481	Mr. Umesh Kumar Kolkata	137.	055760	Mr. Chattopadhyay Sourav Kolkata
117.	054549	Mr. Gupta Rohit Mexico	138.	055817	Mr. Joyakesh Podder Kolkata
118.	054669	Mr. Sanjoy Ghosh Kolkata	139.	055866	Mr. Sen Sanjoy Kolkata
119.	054755	Mr. Agrawal Manoj Kumar Kolkata	140.	055880	Mr. Das Prithvi Ranjan Kolkata
120.	054801	Mr. Bhose Soumitra Kolkata	141.	055926	Mr. Biswanath Chakrabarty Yellowknife
121.	054804	Mr. Nagi Parvin Singh Howrah	142.	055945	Mr. Basu Tarun London
122.	054886	Mr. Khandelwal Devendra Prakash Kolkata	143.	055980	Mr. Hussain Rashid Mississauga
123.	054956	Mr. Tandon Rohit Sydney	144.	056079	Mr. Joshi Mahendra Kumar Howrah
124.	054961	Mr. Chand Ratan Acharya Kolkata	145.	056107	Mr. Gupta Bhaskar Kolkata
125.	054995	Mr. Modani Sanjay Kolkata	146.	056116	Mr. Satadal Ray Kolkata
126.	055063	Ms. Upama Mukherjee Kolkata	147.	056165	Mr. Dutta Soumya Kolkata
127.	055065	Mr. Chakraborty Ranajit Kolkata	148.	056172	Mr. Tewari Ravindra Sharjah
128.	055119	Mr. Sureka Sunil Kolkata	149.	056177	Mr. Ray Arindam Oman
129.	055125	Mr. Dhandhanian Sunil Kumar Howrah	150.	056285	Mr. Dhur Dibyendu Kolkata
130.	055133	Mr. Bihani Chandra Kishor Kolkata	151.	056368	Mr. Dey Sarker Pralay Kolkata
131.	055179	Mr. Lakshman Narayan Benin	152.	056374	Mr. Shukla Anil Hooghly
132.	055290	Mr. Mitra Abhijit Kolkata	153.	056382	Mr. Manoj Kumar Sharma Kolkata
133.	055505	Mr. Varadharajan V Kolkata	154.	056390	Mr. Talukdar Shivaji Kolkata
134.	055533	Mr. Niraj Gupta Kolkata	155.	056542	Mr. Gupta Rajesh Kumar Kolkata
135.	055553	Mr. Sengupta Tarun Kolkata	156.	056589	Mr. Khaitan Dinesh Kumar Kolkata

157.	056590	Mr. Ray Ratul Kolkata	178.	057510	Mr. Banerjee Sobhan Kolkata
158.	056631	Mr. Deb Debasish Kolkata	179.	057547	Mr. Swarup Rajiv Kolkata
159.	056723	Ms. Singh Seema Ontario	180.	057567	Mr. Goswami Indranil Kolkata
160.	056802	Mr. Sengupta Arindam Kolkata	181.	057587	Mr. Gangopadhyay Arumay Kolkata
161.	056842	Mr. Kar Rahul Kolkata	182.	057672	Ms. Ramprasad Iatha New Jersey
162.	056881	Mr. Deb Kumar Chatterjee Asansol	183.	057682	Mr. Agarwal Sanjay Kolkata
163.	056908	Mr. Rajgarhia Shree Kant Kolkata	184.	057689	Mr. Ray Indranil Bhatpara
164.	056918	Mr. Padhi Satyendra Kumar Balangir	185.	057720	Mr. Sen Gupta Aniruddha Kolkata
165.	057056	Mr. Sandip Kumar Padia Kolkata	186.	057753	Mr. Mukhopadhyay Somya Kanti Kolkata
166.	057078	Mr. Khan Sabah New York	187.	057825	Mr. De Kausik Kolkata
167.	057093	Ms. Bandyopadhyay Kamalika Kolkata	188.	057862	Mr. Pal Umasankar Serampore
168.	057171	Mr. Das Arunava New South Wales	189.	057890	Mr. Keshav Maheswari Kolkata
169.	057177	Ms. Kapoor Shalini Kolkata	190.	057912	Mr. Chatterjee Dibyendu Kolkata
170.	057197	Mr. Bose Deep Narayan Howrah	191.	057999	Mr. Harekrushna Panigrahi Bhubaneswar
171.	057256	Mr. Rajesh Rajkarnikar Kathmandu	192.	058001	Mr. Basu Kausik Kumar Kolkata
172.	057284	Mr. Beniwal Mahesh Singapore	193.	058013	Ms. Capoor Deepa Dubai
173.	057373	Mr. Agarwal Ajay Kumar Kolkata	194.	058017	Mr. Bafna Kamal Muscat
174.	057377	Mr. Kedia Nirmal Kumar Kolkata	195.	058028	Mr. Ray Niladri Kolkata
175.	057414	Mr. Dash Chintamani Kolkata	196.	058076	Mr. Rajesh Agarwal Kolkata
176.	057434	Mr. Manoj Kumar Beriwalla Kolkata	197.	058109	Mr. Subba Bikash Male
177.	057465	Mr. Dinesh Sarda Kolkata	198.	058126	Mr. Das Pratap Kumar Kolkata

199.	058152	Mr. Bihani Mahesh Kolkata	220.	058984	Mr. Vijay Kapoor Howrah
200.	058187	Ms. Seth Twanni Kolkata	221.	059099	Mr. Rajarshi Charan Mallick Bhubaneswar
201.	058232	Mr. Rajesh K S Kolkata	222.	059116	Mr. Ray Kausik Saupaulo
202.	058296	Mr. Kargupta Pinaki Kolkata	223.	059248	Mr. Hisaria Rajesh Kumar Kharagpur
203.	058451	Mr. Parbej Sohel Abu Dhabi	224.	059253	Mr. Khowala Lalit Kumar Kolkata
204.	058466	Mr. Nethawewala Abhishek Kolkata	225.	059314	Mr. Sourav Seksaria Kolkata
205.	058544	Mr. Pathak Devesh Kolkata	226.	059319	Mr. Sen Saikat Kolkata
206.	058560	Mr. Darak Vijay Kumar Howrah	227.	059348	Ms. Ganeriwala Vineeta Kolkata
207.	058577	Mr. Vikash Goenka Kolkata	228.	059393	Mr. Saraf Preetam Kolkata
208.	058603	Ms. Bardhan Mohua Burdwan	229.	059407	Mr. Agarwal Bhartendu Kolkata
209.	058624	Ms. Madhu Sharma Kolkata	230.	059448	Mr. Agarwal Siddharth Howrah
210.	058634	Mr. Jhunjhunwala Sanjay Kolkata	231.	059621	Mr. Bafna Alok Kolkata
211.	058689	Mr. Saraogi Manoj Kolkata	232.	059636	Mr. Goswami Subhajit Kolkata
212.	058799	Mr. Jaiswal Anand Kolkata	233.	059675	Ms. Ghosh Nayani Kolkata
213.	058813	Mr. Chandak Raj Kumar Kolkata	234.	059733	Mr. Agarwal Brij Kishore Hindmotor
214.	058839	Ms. Majumdar Dola Kolkata	235.	059745	Mr. Bothra Mahendra Kumar Kolkata
215.	058853	Mr. Bandyopadhyay Phalguni Kolkata	236.	059776	Mr. Rakhecha Dipak Kolkata
216.	058890	Mr. Agarwal Som Prakash Kolkata	237.	059781	Mr. Kaustuv Kumar Ghosh Kolkata
217.	058931	Mr. Kejriwal Pawan Kumar Barakar	238.	059922	Mr. Agrohia Vinay Kumar Cuttack
218.	058937	Mr. Arnab Ray Chowdhury Dubai	239.	059931	Mr. Mitra Subhraketan Kolkata
219.	058958	Mr. Padhi Dillip Kumar Brahmapur	240.	059954	Mr. Banka Sanjoy Bankura



241.	060013	Mr. Nandi Dipankar Bhadrakali	262.	060455	Ms. Balduva Manisha Hooghly
242.	060050	Mr. Bhattacharyya Sugata Kolkata	263.	060461	Mr. Subhash Kumar Bubna Howrah
243.	060064	Mr. Milan Sadhukhan Kolkata	264.	060464	CA. Sushma Goenka Kolkata
244.	060074	Mr. Agrawal Anupam Rishra	265.	060488	Mr. Banerjee Abin Kolkata
245.	060109	Mr. Suman Chakraborty Kolkata	266.	060513	Mrs. Radha Aggarwal Kolkata
246.	060141	Mr. Agarwal Kamlesh Kumar Kolkata	267.	060521	Mr. Lahoti Vivek Kolkata
247.	060166	Ms. Rupa Khaitan Kolkata	268.	060670	Mr. Beriwalla Rishi Kolkata
248.	060185	Mr. Bothra Anurag Kolkata	269.	060703	Mr. Beborta Sanket Bhubaneswar
249.	060198	Mr. Sirohia Rakesh Kolkata	270.	060718	Mr. Mitra Arunabha Kolkata
250.	060217	Mr. Daga Ritesh Kolkata	271.	060733	Mr. Vikash Agarwal Kolkata
251.	060230	Mr. Bhattacharyya Smarajit Kolkata	272.	060746	Mr. Baid Dinesh Kolkata
252.	060246	Mr. Pal Abhishek Kolkata	273.	060757	Mr. Jhaveri Bhavesh D Kolkata
253.	060266	Mr. Pradeep Kumar Naredi Rourkela	274.	060764	Mr. Purohit Ghanshyam Kolkata
254.	060324	Mr. Chakravarty Subhrangsu Kolkata	275.	060826	Mr. Choubey Sanjeev Kumar Tinsukia
255.	060329	Mr. Debnath Kaushik Kolkata	276.	060828	Mr. Saraf Anupam Kolkata
256.	060331	Mr. Pramod Gourisaria Kolkata	277.	060877	Mr. Subramanian L Kolkata
257.	060368	Mr. Patnaik Vikram Kolkata	278.	060889	Mr. Chourasia Lal Babu Kolkata
258.	060388	Mr. Roy Vivek Progun Kolkata	279.	060890	Mr. Srivastava Tarang Kolkata
259.	060392	Mr. Parakh Amit Kolkata	280.	060951	Mr. Neeraj Kalawatia Kolkata
260.	060407	Mr. Mundra Ballav Kolkata	281.	061002	Mr. Desai Amit Kolkata
261.	060445	Mr. Modani Basant Kolkata	282.	061017	Mr. Kothari Radhe Shyam Rishra

283.	061029	Mr. Animesh Chatterjee Kolkata	304.	061628	Ms. Ritu Sharma Raniganj
284.	061037	Mr. Ramanan Ravi Iyer Kolkata	305.	061638	Mr. Kapoor Sarvesh Kolkata
285.	061039	Mr. Mundhra Adarsh Kolkata	306.	061644	Ms. Saharia Nidhi Kolkata
286.	061084	Mr. Bansal Rajesh Manama	307.	061652	Mr. Bhatnagar Sandeep K Kolkata
287.	061099	Mr. Agarwal Navneet Kolkata	308.	061671	Mr. Maheshwari Rakesh Bhadrakali
288.	061196	Ms. Upnit Kalyan Kolkata	309.	061679	Mr. Mimani Saurav Siliguri
289.	061219	Mr. Sachin jaiswal Kolkata	310.	061706	Mr. Sanjib Manna Tamluk
290.	061226	Ms. Prerna Somani Kolkata	311.	061719	Mr. Kapoor Abhishek St Albans Ali 1TW
291.	061302	Mr. Mandal Mahadeb Balasore	312.	061720	Mr. Agarwal Ravi Kolkata
292.	061319	Mr. Sen Shovik Kolkata	313.	061740	Mr. Sen Amitava Kolkata
293.	061375	Mr. Dhandhaniala Rahul Kumar Howrah	314.	061779	Mr. Agarwal Udit Kolkata
294.	061448	Mr. Gupta Nitin Guddu Kolkata	315.	061832	Ms. Payal Bagaria Kolkata
295.	061462	Ms. Nitu Agarwal Rishra	316.	061841	Mr. Amit Kumar Agarwal Kolkata
296.	061491	Mr. Vinay Mundhra Kolkata	317.	061944	Mr. Gupta Rohit Kolkata
297.	061493	Mr. Chetan Prakash Bagaria Kolkata	318.	062011	Mr. Mukesh Kumar Bagaria Kolkata
298.	061499	Mr. Bhudolia Abhay Kumar Kolkata	319.	062032	Mr. Makharia Navin Asansol
299.	061502	Ms. Roy Babita Saupaulo	320.	062037	Mr. Laha Chandan Kolkata
300.	061517	Mr. Alope Surana Kolkata	321.	062040	Ms. E Vasavi Kolkata
301.	061558	Ms. Sanjula Bhudolia Kolkata	322.	062086	Mr. Ganguly Indraneel New York
302.	061565	Mr. Das Jayanta Kolkata	323.	062117	Mr. Pal Debnath Howrah
303.	061621	Mr. Agarwal Ajay Kolkata	324.	062144	Mr. Bhaumik Somnath Kolkata

325.	062215	Mr. Bijay Bansal Jorethang	346.	062573	Mr. Verma Rajeev Kumar Kolkata
326.	062216	Ms. Mukherjee Anindita Kolkata	347.	062596	Mr. Biswal Debankar Bhubaneswar
327.	062229	Mr. Ladia Anjani Kumar Stamford	348.	062661	Mr. Mukherjee Sreemanta Howrah
328.	062236	CA. Sweta Goyal Guwahati	349.	062666	Ms. Vijay Laxmi Nevatia Kolkata
329.	062288	Mr. Ghosh Abhijit Bally	350.	062679	Mr. Baid Vineet Kolkata
330.	062308	Mr. Sandeep Sharma Kolkata	351.	062711	Mr. Goenka Manish Kolkata
331.	062333	Mr. Dey Santanu Kolkata	352.	062765	Mr. Nolkha Babu Lal Howrah
332.	062339	Mr. Manish Choudhury Siliguri	353.	062783	Mr. Maskara Pankaj Kolkata
333.	062366	Mr. Das Abhishek Danbury	354.	062790	Mr. Sengupta Malay Kolkata
334.	062387	Mr. Patodia Rajesh Kolkata	355.	062826	Mr. Khaitan Bal Krishan Kolkata
335.	062411	Ms. Sripriya R Kolkata	356.	062840	Mr Jain Amit Kolkata
336.	062466	Mr. Mukesh Agarwal Kolkata	357.	062848	Mr. Surana Gaurav Howrah
337.	062491	Mr. Agrawal Ritesh Bargarh	358.	062880	Mr. Atish Shah Howrah
338.	062504	Mr. Agarwal Manish Kolkata	359.	062890	Mr. Poddar Vikash Kolkata
339.	062529	Mr. Beriwalla Prakash Kolkata	360.	062902	Mr. Damani Giriraj Kolkata
340.	062537	Mr. Kedia Ashish Kolkata	361.	062913	Mr. Jhunhunwala Gaurav Kolkata
341.	062541	Mr. Barik Prasanta Kumar Suri	362.	062941	Mr. Brijesh Bamalwa Kolkata
342.	062545	Mr. Bagri Ravi Kolkata	363.	062952	Ms. Malhotra Puja Kolkata
343.	062554	Mr. Sanjay Kumar Lodha Kolkata	364.	062963	Mr. Parekh Amit Kolkata
344.	062558	Mr. Bhartia Chandra Sekhar Kolkata	365.	062978	Mr. Malhotra Yatin Kolkata
345.	062567	Mr. Panda Soumya Ranjan Kolkata	366.	063005	Mr. Garg Mohit Bhubaneswar

367.	063024	Mr. Badal Kumar Upadhyaya Bhubaneswar	388.	063512	Mr. Daga Dinesh Kolkata
368.	063066	Ms. Jain Ratna Jyoti Howrah	389.	063534	Ms. Kapoor Aditi Guwahati
369.	063103	Mr. Avinash Jha London	390.	063552	Ms. Mohunta Shreya Vinod London
370.	063114	Mr. Sonthalia Satish London	391.	063559	Ms. Richa Sharma Kolkata
371.	063155	Mr. Bagree Nilesch Kolkata	392.	063569	Mr. Gupta Vishwakarma Howrah
372.	063174	Mr. Hitendra Kumar Jain Kolkata	393.	063595	Mr. Paul Chirajit Kolkata
373.	063189	Ms. Pitty Priyanka Kolkata	394.	063623	Mr. Rajgaria Vikas Keshardeo Hyderabad
374.	063261	Mr. Patwari Pawan Kumar Kolkata	395.	063652	Ms. Kedia Nimisha Kolkata
375.	063275	Mr. Soni Amit Kumar Kolkata	396.	063664	Mr. Banerjee Pradipta Milton Keynes
376.	063315	Mr. Sahoo Umakanta Dhenkanal	397.	063671	Ms. Bazaz Suman Howrah
377.	063328	Mr. Narendra Mandhana Dalkhola	398.	063697	Ms. Das Ruma Kolkata
378.	063335	Ms. Bhagat Sulbha Kolkata	399.	063706	Mr. Patel Pankaj Kolkata
379.	063340	Mr. Agarwal Manoj Kumar Cuttack	400.	063709	Ms. Pareek Savita Barakar
380.	063344	Mr. Bajoria Manish Kolkata	401.	063764	Mr. Bhansali Pratik Kolkata
381.	063365	Mr. Bothra Pradeep Kumar Howrah	402.	063776	Mr. Arun Joshi Kolkata
382.	063367	Mr. Agarwal Puneet Kolkata	403.	063786	Mr. Bagri Ashish Kumar Kolkata
383.	063389	Mr. Bhansali Sachin Kumar Alipurduar	404.	063830	Ms. Preeti Kyal Cuttack
384.	063397	Mr. Chhajlani Vishal Kolkata	405.	063874	Mr. Suraj Agarwal Kolkata
385.	063417	Mr. Sharma Vishal Kolkata	406.	063881	Mr. Agarwal Gopal Kumar Howrah
386.	063448	Mr. Anjan Kumar Maiti Kolkata	407.	063897	Mr. Vishal Kumar Agarwal Kolkata
387.	063472	Mr. Kunal Mukherjee Kolkata	408.	063948	Mr. Joshi Vishnu Kant Kolkata

409.	063967	Mr. Goswami Titas Kolkata	430.	064206	Ms. Debjani Guha Kolkata
410.	064022	Mr. Sukhlecha Shailendra Durgapur	431.	064223	Mr. Jain Amit Kolkata
411.	064023	Mr. Jain Pramod Kolkata	432.	064259	Mr. Bang Gopal Dubai
412.	064054	Mr. Nayak Ashok Kumar Bhubaneswar	433.	064298	Ms. Rashmi Bihani Kolkata
413.	064056	Mr. Bagree Vishal Danbury	434.	064329	Mr. Amit Bihani Kolkata
414.	064070	Ms. Som Sanhita Kolkata	435.	064343	Mr. Punit Khandelwal Rishra
415.	064071	Mr. Datta Ayan Kolkata	436.	064355	Ms. Arpita Pramanik Kolkata
416.	064092	Mr. Harlalka Vikash Kolkata	437.	064359	Mr. Kirti Kumar Jain Howrah
417.	064097	Mr. Lahoti Amit London	438.	064368	Mr. Pawan Kumar Kejriwal Titlagarh
418.	064113	Mr. Deepak Chamaria Kolkata	439.	064404	Mr. Rajesh Kumar Pandey Kolkata
419.	064114	Mr. Nad Raveen Durgapur	440.	064405	Mr. Amit Kumar Agarwal Kolkata
420.	064120	Mr. Biyani Vikram Hindmotor	441.	064428	Mr. Ram Bharat Yadav Burnpur
421.	064125	Mr. Batra Ravee Kolkata	442.	064442	Mr. Manish Khanna Kolkata
422.	064126	Mr. Sethi Rahul Singapore	443.	064488	Mr. Vikash Dokania London
423.	064142	Mr. Deepak Jain Kolkata	444.	064561	Ms. Nidhi Baid Kolkata
424.	064147	Ms. Kejriwal Payal Kolkata	445.	064565	Mr. Avishek Jain Kolkata
425.	064160	Ms. Khurana Jinny Kolkata	446.	064577	Mr. Amit Kumar Agarwal Howrah
426.	064171	Mr. Agarwal Vijay Kumar Kolkata	447.	064593	Mr. Jagannath Rout Balasore
427.	064180	Mr. Adhikary Asis Kolkata	448.	064618	Mr. Amit Jain Kolkata
428.	064181	Mr. Kundu Arunangshu Bangkok	449.	064649	Mr. Vivek Poddar Howrah
429.	064192	Mr. Joshi Ankit Siliguri	450.	064673	Mr. Santosh Kumar Agarwal Kolkata

451.	064674	Mr. Mukul Agarwal Kolkata	472.	065078	Mr. Rajesh Kumar Parichha Brahmapur
452.	064676	Mr. Amitabh Sahu Keonjhar	473.	065083	Mr. Atul Gupta Kolkata
453.	064688	Mr. Suman Ghosh Kolkata	474.	065084	Mr. Bhaskar Dave Kolkata
454.	064703	Ms. Priya Sarda Kolkata	475.	065094	Ms. Rashmi Shah Kolkata
455.	064724	Mr. Akash Kumar Jain Howrah	476.	065102	Mr. Sumit Kumar Kolkata
456.	064737	Ms. Mamta Agarwal Kolkata	477.	065115	Mr. Manish Agarwal Kolkata
457.	064743	Mr. Kishan Rathi Kolkata	478.	065129	Mr. Sujeet Kumar Agrawal Kolkata
458.	064762	Mr. Piyush Sureka Kolkata	479.	065159	Mr. Navneet Jhavar Kolkata
459.	064771	Mr. Ankush Agarwal Kolkata	480.	065193	Mr. Shubhashish Sarkar Kolkata
460.	064777	Ms. Nutan Gaba Kolkata	481.	065203	Mr. Rajesh Mall Kolkata
461.	064806	Mr. Kapil Sabharwal Kolkata	482.	065226	Mr. Ankur Kandoi Kolkata
462.	064826	Mr. Sandeep Kumar Agarwal Howrah	483.	065245	Ms. Mili Rastogi Kolkata
463.	064843	Mr. Animesh Gadia Dubai	484.	065258	Mr. Neeraj Kumar Jumrani Kolkata
464.	064858	Mr. Ravi Khandelwal Kolkata	485.	065280	Ms. Jyoti Bagri Kolkata
465.	064880	Ms. Nisha Jain Kolkata	486.	065311	Mr. Amit Pathak Kolkata
466.	064890	Mr. Pravin Agarwalla Siliguri	487.	065321	Mr. Ashish Daima Howrah
467.	064899	Mr. Ashok Kumar Maiti Kolkata	488.	065333	Mr. Tirtha Pratim Sahu Kolkata
468.	064925	Mr. Nikhil Saraf Kolkata	489.	065341	Mr. Anand Kumar Sinha Kolkata
469.	064932	Ms. Deepa Kumari Kolkata	490.	065383	Mr. Subrat Kumar Panda Bhubaneswar
470.	065043	Mr. Sumit Poddar Kolkata	491.	065384	Ms. Aditi Saraf Kolkata
471.	065055	Mr. Rajeev Agarwal Kolkata	492.	065431	Mr. Dillip Kumar Mishra Paradip

493.	065433	Mr. Amit Kumar Agarwal Kolkata	514.	065829	Mr. Kamlesh Agarwal Kolkata
494.	065438	Mr. Gopal Krishna Goenka Bhubaneswar	515.	065844	Mr. Raj Anand Kolkata
495.	065441	Mr. Hitesh Doshi Kolkata	516.	065862	Mr. Birendra Kumar Mahnot Kolkata
496.	065508	Ms. Nidhi Hinger Kolkata	517.	065865	Mr. Pranay Kumar Sureka Kolkata
497.	065512	Mr. Niraj Goel Kolkata	518.	065872	Mr. Ashutosh Kumar Mallick Kolkata
498.	065523	Mr. Pankaj Kumar Agarwal Kolkata	519.	065874	Mr. Gopal Krishna Podder Naihati
499.	065525	Mr. Shasi Bhusan Mishra Kolkata	520.	065894	Ms. Mamta Ojha Haldia
500.	065544	Mr. Harish Arora Asansol	521.	065899	Mr. Hemant Baid Howrah
501.	065546	Mr. Satyakama Devajyoti Ray Bhubaneswar	522.	065913	Mr. Rakshit Kumar Rishra
502.	065586	Ms. Antima Mundra Howrah	523.	065920	Mr. Dau Dayal Mall Kolkata
503.	065590	Mr. Suchibrata Bandyopadhyay Kolkata	524.	065936	Mr. Debjit Banerjee Kolkata
504.	065596	Mr. Biplab Dutta Ray Kolkata	525.	066025	Mr. Rajesh Roy Konnagar
505.	065626	Mr. Susobhan Pattanayak Panskura	526.	066036	Mr. Vineet Chand Kolkata
506.	065694	Ms. Amrita Gupta Kolkata	527.	066041	Mr. Subhash Kumar Choudhary Kolkata
507.	065717	Mr. Rajkamal Singh Raniganj	528.	066059	Ms. Shiuli Dutta Kolkata
508.	065770	Ms. Deepali Jairam Kolkata	529.	066065	Mr. Gaurav Dalan Kolkata
509.	065774	Mr. Sushmit Banerjee Kolkata	530.	066075	Ms. Prity Kabra Guwahati
510.	065791	Ms. Reena Khaitan Kolkata	531.	066088	Mr. Piyush Agarwal Kolkata
511.	065815	Mr. Rahul Jain Kolkata	532.	066100	Ms. Jinisha Parekh Kolkata
512.	065817	Mr. Navneet Rathi Kolkata	533.	066147	Mr. Ram Chander Sharma Kolkata
513.	065824	Mr. Javed Siddiqui Kolkata	534.	066155	Mr. Umesh Kumar Gupta Kolkata

535.	066161	Mr. Pradeep Agarwal Kolkata	556.	066546	Mr. Samdarshi Kolkata
536.	066178	Mr. Hemant Agrawal Kolkata	557.	066639	Mr. Niraj Bhimseria Purulia
537.	066195	Mr. Mukesh Kumar Saraf Kolkata	558.	066642	Mr. Sunit Khandelwal Rishra
538.	066200	Mr. Surajit Kashyapi Kolkata	559.	066653	Mr. Abhishek Mohta Kolkata
539.	066207	Ms. Tripti Kanoria Kolkata	560.	066691	Ms. Gagori Chatterjee Kolkata
540.	066224	Ms. Priyanka Nath Kolkata	561.	066713	Mr. Rajiv Choudhary Kolkata
541.	066278	Mr. Vikash Kedia Kolkata	562.	066744	Mr. Md Zahid Howrah
542.	066287	Mr. Raju Banerjee Kolkata	563.	066781	CA. Praveen Agarwal Kolkata
543.	066293	Mr. Amit Upadhyaya Kolkata	564.	066818	Mr. Naval Kala Kolkata
544.	066333	Mr. Umesh Kumar Sharma Howrah	565.	066857	CA. Arun Kumar Agarwal Sheoraphully
545.	066337	Mr. Pawan Kumar Kolkata	566.	066871	CA. Umesh Chandra Giri Kolkata
546.	066338	Ms. Sujata Chakravarti London	567.	066878	CA. Surit Shome Kolkata
547.	066339	CA. Amit Pachariwala Kolkata	568.	066925	CA. Kaushik Agarwala Kolkata
548.	066341	Mr. Subir Kumar Agrawala Jagatsinghpur	569.	066941	Mr. Haresh Patel Kolkata
549.	066349	Ms. Puja Jain Kolkata	570.	066953	Mr. Saurabh Pal Kolkata
550.	066375	Mr. Dibyendu Mallick Howrah	571.	067037	CA. Partha Dutta Palta
551.	066379	Mr. Narendra Saraf Howrah	572.	067188	Mr. Deepak Kumar Bhansali Kolkata
552.	066404	Mr. Joydeep Purkayastha Guwahati	573.	067189	Mr. Sudarshan Jain Howrah
553.	066406	Mr. Anil Sureka Kolkata	574.	067190	Mr. Awanish Kumar Singh Howrah
554.	066508	Mr. Piyush Chhaochharia Kolkata	575.	067199	Mr. Sanjay Baheti Kolkata
555.	066512	Ms. Leela Agarwal Guwahati	576.	067200	Mr. Atul Raghav Kolkata



577.	067211	Mr. Sandeep Mangal Agarwal Kolkata	598.	067574	Mr. Sandip Bagaria Salkia
578.	067217	Mr. Vikash Dokania Asansol	599.	067576	Mr. Gopal Pansari Howrah
579.	067274	Ms. Harsha Pachisia Kolkata	600.	067602	Ms. Deepa Avani Kant Kolkata
580.	067275	Mr. Saroj Kumar Mohanty Bhubaneswar	601.	067608	Mr. Indranil Das Kolkata
581.	067307	Mr. Prasenjit Sengupta Durgapur	602.	067613	Ms. Minu Kapoor Kolkata
582.	067311	Mr. Amit Kumar Patwarika Kolkata	603.	067652	Mr. Vivek Dalmia Kolkata
583.	067328	Mr. Bharat Marodia Kolkata	604.	067724	Ms. Payal Goyal Kolkata
584.	067334	Mr. Phiroj Kumar Barad Bhubaneswar	605.	067738	Mr. Himanshu Mohata Howrah
585.	067344	Mr. Taha Sadikot Kolkata	606.	067740	Mr. Kamal Jhanwar Howrah
586.	067372	Ms. Amrita Roy Rishra	607.	067761	Mr. Vikash Verma Kolkata
587.	067373	Mr. Suman Kumar Kolkata	608.	067808	Mr. Sachin Kumar Singh Howrah
588.	067397	Mr. Mukesh Chand Burad Raniganj	609.	067812	Mr. Satish Kumar Bahrain
589.	067401	Mr. Gourav Dokania Kolkata	610.	067832	Mr. Saswata Krishna Deb Kolkata
590.	067419	Mr. Mahesh Sarda Hindmotor	611.	067863	Mr. Praveen Agrawal Bhubaneswar
591.	067425	Mr. Vinod Prasad Kolkata	612.	067902	Mr. Vikash Kumar Paul Kolkata
592.	067452	Mr. Nitin Kumar Kedia Howrah	613.	067939	Mr. Kunal Parekh Kolkata
593.	067479	Mr. Sudeep Kedia Kolkata	614.	067958	Mr. Rakesh Agarwal Kolkata
594.	067484	Mr. Chandan Jindal Kolkata	615.	067971	Mr. Vikas Jain Kolkata
595.	067523	Mr. Vikash Agrawal Kolkata	616.	067995	Mr. Manish Digga Kolkata
596.	067548	Mr. Amit Kumar Mishra Howrah	617.	067997	Ms. Indrani Hazarika Dubai
597.	067550	Mr. Piyush Choraria Howrah	618.	068016	Mr. Pravin Agarwal Barakar

619.	068037	Mr. Manish Choudhary Asansol	640.	068458	Mr. Gaurav Agarwal Howrah
620.	068043	Mr. Dharam Chand Sethia Kolkata	641.	068469	Ms. Sukanya Guin Kolkata
621.	068074	Ms. Sweety Agrawal Siliguri	642.	068478	Mr. Alok Kumar Kolkata
622.	068080	Mr. Vishal Surana Howrah	643.	068490	Mr. Bikash Agarwal Rishra
623.	068179	Mr. Ravi Berlia Siliguri	644.	068503	Ms. Anuradha Jhunjunwala Kolkata
624.	068241	Ms. Jyoti Modi Kolkata	645.	068518	Mr. Prateek Agarwal Kolkata
625.	068261	Mr. Pankaj Kumar Choudhary Bhadrakali	646.	068531	Ms. Smitha Grover Kolkata
626.	068266	Mr. Manmohan Dhanuka Howrah	647.	068552	Mr. Abhijit Paul Kolkata
627.	068269	Ms. Silpa Agarwal Kolkata	648.	068562	Mr. Ashish Dhandharia Bhadrakali
628.	068283	Mr. Amit Kumar Tekriwal Kolkata	649.	068563	Ms. Priyanka Bang Howrah
629.	068284	Mr. Bhaskar S Sahay Howrah	650.	068636	Mr. Shubh Tiwari Kolkata
630.	068295	Mr. Ratnesh Kumar Pandey Kolkata	651.	068689	Mr. Manoj Agarwal Kolkata
631.	068303	Mr. Vinay Poddar Howrah	652.	068694	Mr. Sachin Kumar Jain Kolkata
632.	068349	Mr. Umesh Kumar Sultaniya Kolkata	653.	068699	Mr. Nitesh Kejriwal Kolkata
633.	068375	Mr. Prabhat Kumar Singh Kolkata	654.	068709	Mr. Pankaj Kumar Baheti Howrah
634.	068378	Mr. Jaydeep Bhowal Guwahati	655.	068711	Mr. Pankaj Periwal Kolkata
635.	068388	Mr. Shahbaz Alam Dubai	656.	068713	Mr. Subhayu Ghosh Bolpur
636.	068390	Mr. Anup Kumar Bagaria Cuttack	657.	068716	Mr. Varun Harlalka Kolkata
637.	068407	Mr. Vijay Bajaj Kolkata	658.	068722	Mr. Avishek Lath Barakar
638.	068421	Mr. Rahul Dixit Howrah	659.	068770	Mr. Binay Kumar Saraf Kolkata
639.	068442	Ms. Payal Poddar Kolkata	660.	068802	Mr. Rajshekhar Basak Kolkata

661.	068817	Mr. Pankaj Chhaochharia Kolkata	682.	069305	Ms. Sneha Fogla Angul
662.	068857	Mr. Saket Kumar Chirania Howrah	683.	069319	Mr. Nikhil Vashisth Kolkata
663.	068875	Mr. Gaurav Kumar Khaitan Kolkata	684.	069345	Mr. Manish Kumar Patawari Howrah
664.	068901	Mr. Gulam Mohammad Waris Siddique Kolkata	685.	069354	Mr. Abhishek Kumar Sharma Konnagar
665.	068920	Mr. Abhishek Mohapatra Bhubaneswar	686.	069362	Mr. Dipak Daga Kolkata
666.	068953	Mr. Ankit Lohia Kolkata	687.	069398	Ms. Neha Bhatia Kolkata
667.	069025	Mr. Diptendu Pandit Kolkata	688.	069399	Mr. Partha Sarathi Parija Cuttack
668.	069044	Mr. Bijay Kumar Suhasaria Bankura	689.	069402	Mr. Mohit Jain Howrah
669.	069125	Mr. Harsh Vardhan Bolia Kolkata	690.	069418	Mr. Vikash Kedia Bhadrakali
670.	069150	Mr. Sourav Kejriwal Howrah	691.	069422	Ms. Nikita Agarwal Malda
671.	069161	Ms. Anu Todi Agartala	692.	069426	Mr. Anirban Das Kolkata
672.	069180	Mr. Abhishek Agarwal Kharagpur	693.	069468	Mr. Pramod Kumar Singh Kolkata
673.	069182	Ms. Amrita Kumari Kolkata	694.	069473	Mr. Dipak Sharma Kolkata
674.	069188	Mr. Abhishek Gaddhyan Barakar	695.	069523	Ms. Rajeshwari Sharma Kolkata
675.	069198	Mr. Amit Rathi Kolkata	696.	069598	Mr. Amit Agarwal Howrah
676.	069208	Mr. Manish Agarwala Kolkata	697.	069605	Mr. Vikash Jain Kolkata
677.	069211	Mr. Mohammed Arshad Ali Kolkata	698.	069607	Mr. Gaurav Sharma Kolkata
678.	069257	Mr. Roshan Dahal Kolkata	699.	069610	Mr. Rahul Baheti Kolkata
679.	069270	Mr. Anoop Agarwal Howrah	700.	069611	Mr. Moiz A Singapurwala Kolkata
680.	069292	Mr. Sourav Bagaria Raniganj	701.	069629	Mr. Abhishek Jhunjunwala Kolkata
681.	069295	Mr. Harsh Vardhan Nathany Kolkata	702.	069657	Ms. Shilpa Agarwal Kolkata

703.	069666	Mr. Saurabh Bhartia Kolkata	724.	107105	Mr. Roop Narendranath Roy Kolkata
704.	069682	Mr. Pabitra Mohan Dash Balasore	725.	108716	Mr. Barnwal Sanjay Kumar Asansol
705.	070370	Mr. Mittal Kailash Chandra Guwahati	726.	109772	Mr. Grewal Jasraj Singh Kolkata
706.	070630	Mr. Agrawal Gopal Das Kolkata	727.	110935	Ms. Ray Lopamudra Tapas Kolkata
707.	071392	Mr. Tandon Deepak Balasore	728.	112297	Ms. Mangala Vishwanath Iyer Kolkata
708.	072485	Mr. Santanu Ganguly Kolkata	729.	115108	Mr. Sumanta Kumar Nayak Bhubaneswar
709.	072943	Mr. Krishnan S R Kolkata	730.	126751	Ms. Urmila Kothari Kolkata
710.	074642	Mr. Upadhyaya Vishnu Dutt Rishra	731.	128223	Mr. Vivek Jhunjhunwala Kolkata
711.	078256	Mr. Mazumdar Soumendra Kolkata	732.	133786	Mr. Ankur Kumar Dokania Kolkata
712.	079439	Mr. Amit Kumar Jain Kolkata	733.	207571	Mr. Ananth V Kolkata
713.	084309	Mr. Mirza M Jahangeer Kolkata	734.	209038	Mr. Raja Ray Kolkata
714.	086242	Mr. Panda Trilochan Bhubaneswar	735.	211633	Mr. Nihar Ranjan Patri Bhubaneswar
715.	093665	Mr. Jhunjhunwala Aditya Kolkata	736.	212455	Mr. Singh Rashmi Ranjan Bhubaneswar
716.	095652	Mr. Biresh Das Bhubaneswar	737.	214714	Mr. Vishal Jajodia Cuttack
717.	098148	Ms. Rachna M Kejriwal Kolkata	738.	216464	Mr. Vidyānand Prabhakar Howrah
718.	100575	Mr. Shomik Mukherjee Kolkata	739.	216494	Mr. Subhankar Das Cuttack
719.	101071	Mr. Padhi Subhakant Bhubaneswar	740.	217942	Mr. Priyabrata Biswal Bhubaneswar
720.	101830	Mr. Anirban Das Kolkata	741.	219200	Mr. Saraoj Kumar Badhai Jharsuguda
721.	103628	Mr. Choudhary Suresh Kumar Dubai	742.	221938	Mr. Purav Deep Singh Bhattal Rourkela
722.	105811	Ms. Ghose Ivy Priya Calabasas	743.	222980	Mr. Rishi Gupta Kolkata
723.	106502	Mr. Chakrabarty Ranabir Kolkata	744.	224553	Mr. Nakul Kumar Kolkata

745.	401187	Mr. Goswami Debobrato Kolkata	751.	509183	Mr. Sumit Jhunjunwala Raniganj
746.	409109	CA. Chandan Kumar Mittal Bhubaneswar	752.	510324	Mr. Basu Sharma Kuala Lampur
747.	502239	Mr. Jain Uttam Kumar Kolkata	753.	511219	Mr. Habibur Rahman Khan Duliajan
748.	503613	Mr. Thatoi Anshuman Bhubaneswar	754.	511227	Mr. Ashish Agarwal Howrah
749.	504362	Mr. Samantaray Kamini Kanta Bhubaneswar	755.	513533	Mr. Pankaj Garg Kolkata
750.	507202	Ms. Nikita Sinha Kolkata	756.	517881	Mr. Krishna Prasad Kolkata

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

### NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

The 25th July 2012

F. No. NCDC-2-1/2010-Admn.—In partial modification of the notification No. NCDC:2-1/2010-Admn. dated 19th Oct. 2010 published in the Gazette of India No. 44 Part III, Section 4 dated October 30—November 5, 2010 and in exercise of the powers conferred by Regulation 7-A of National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, the Board of Management of the Corporation in its meeting held on 27th June, 2012 has approved amendment to the Recruitment Rules as under :—

1. (v) Director – that the existing provision in Col. 11 & 12 be substituted by the following:-

Col.No.		Amended
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by Promotion failing which by deputation
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p>Promotion: Deputy Directors with 5 years regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation</u></p> <p>(i) Persons working in Central/ State Govt./ autonomous bodies etc. holding analogous posts; or with 5 years service in posts carrying Grade Pay of Rs.6600/-; or</p> <p>(ii) Possessing educational qualifications and experience as follows; Bachelor's degree with MBA (2-years' full time/3-years' part-time) with specialization in Finance/Marketing, or Post Graduation in Economics/ Commerce/Statistics/Agri-business/ Rural Management/Cooperative Management/ Banking/ Insurance, or Chartered Accountant/Cost Accountant with 8 years' post-qualification experience in executive capacity in finance, accounts, costing, taxation, risk assessment, audit, resource management, project appraisal, financing, monitoring, evaluation and allied functions in a bank/financial/developmental institution, and also conversant with use of computer and related software.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department or the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 (four) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).</p>

2. (xvi) Skilled posts Multi Tasking Staff – Scooter Rider – the word 'Skilled posts Multi Tasking Staff' prefixed before Scooter Rider be deleted.
3. (xxii) Skilled posts Multi Tasking Staff – Electrician – the word 'Skilled posts Multi Tasking Staff' prefixed before Electrician be deleted.
4. Note: A provision at Sl.No.4 in Note at last page of Recruitment Rules has been made and existing S.No. 4 made as 5 as under:-
4. For promotion to the post of Chief Director, an officer should normally have put in a minimum stint of 3 years in a field office either as Programme Officer or Assistant Director or Deputy Director or Director, or 3 years at Head Office in case the officer has been at a Regional Office all along.

The above provisions/amendments shall take effect from 27<sup>th</sup> June 2012.

CHANDRA BHUSHAN PALIWAL  
Managing Director

## NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

New Delhi, the 31st July 2012

No. L/61/2010-NALSA. - In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the National Legal Services Authority hereby makes the following regulations to amend the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, namely: -

1. (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Amendment Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, -

(a) In sub-regulation (1), -

(i) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ea) "Panel Lawyer" means a legal practitioner empanelled as a Panel Lawyer under regulation 8';

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

'(fa) "Retainer Lawyer" means a Panel Lawyer designated as the Retainer Lawyer under sub-regulation (6) of regulation 8';

3. In regulation 4 of the principal regulations, -

(a) in sub-regulation (1), -

(i) the words "a panel lawyer and" shall be omitted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that persons with the qualification of Masters degree in Social Work or Diploma or Masters degree in psychiatry or psychology from any recognised institute or university may also be called to the front office as and when necessary.";

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(2) In the case of court based legal services, services of a panel lawyer or retainer lawyer may be provided and such lawyer shall,

after considering the application, forward the same to the Committee constituted under regulation 7.”;

- (c) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(3) The Para-Legal Volunteers in the front office shall render services such as issuing of simple notices, drafting of applications and petitions, providing basic information on the course of action to be taken in a situation and to act as an intermediary between the persons in need of legal services and the legal services institutions to enable such persons to gain access to justice.”;

- (d) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(4) The Para-Legal Volunteers or the panel lawyer or the retainer lawyer, as the case may be, in the front office may obtain secretarial assistance from the staff of the Legal Services Institutions.”;

- (e) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(5) In case of urgent matters, the retainer lawyer may be called to the front office to provide legal assistance of appropriate nature to the persons in need of legal services:

Provided that the Committee constituted under regulation 7 may consider and approve the action taken by such lawyer.”;

4. In regulation 8 of the principal regulations, for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(10) The panel lawyer or, as the case may be, the retainer lawyer shall be available to deal with legal aid cases:

Provided that such lawyers may take up other briefs, but shall not appear against a party to whom legal aid has been given through the legal services institutions:

Provided further that such restriction shall not be applicable where both the parties have availed legal aid.”

(U.Sarathchandran)  
Member-Secretary

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification No.L/61/2010/NALSA, dated the 13<sup>th</sup> September, 2010.

## PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 24th July 2012

No.14-1/11-PCI-Pt-I – In exercise of the powers conferred by section 10 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) and directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging, Pharmacy Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations:-

**1. Short title and commencement:-**

- (i) These Regulations may be called the Pharmacy Council of India Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Pharmacy Colleges, 2012.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (iii) They shall apply to all the Pharmacy institutions established in accordance with the provisions of the Pharmacy Act, 1948 & regulations framed thereunder as amended from time to time for the purpose of imparting pharmacy education in the country and cover all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such Pharmacy Institutions whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such Pharmacy Institutions.

Notwithstanding anything contained in the Pharmacy Act, 1948 and any of the regulations made there under as amended from time to time, it shall be the duty and responsibility of Management/Head of Institute of the Pharmacy Colleges to create a conducive atmosphere for imparting Pharmacy education to the Pharmacy students undergoing training in such colleges and take all necessary steps to prevent/prohibit/curb ragging of any type in their Pharmacy Colleges to enable students to study the vast Pharmacy Course and its various parameters and concepts of Pharmacy education in a calm and peaceful atmosphere as the Pharmacy education requires grueling studies.

**2. Objectives. -**

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from Pharmacy institutions in the country by prohibiting it under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.



**3. What constitutes Ragging.-** Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

**4. Definitions.-**

- 1) In these regulations unless the context otherwise requires,-
  - a) "Act" means, the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948);
  - b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in Pharmacy course of study in the Pharmacy institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
  - c) "Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established by the UGC under UGC Regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009 under UGC Act 1956
  - d) "Central Council" means Pharmacy Council of India constituted under section 3 of the Pharmacy Act 1948.
  - e) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or the HOI/HOD or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
  - f) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.

- g) "Institution" means a Pharmacy institution established in accordance with provision of the Pharmacy Act 1948 & regulations made thereunder as amended from the time to time for the purpose of imparting Pharmacy Education in the country.
  - j) University - means a university within the meaning of section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and includes such other institutions, being institutions established by or under a Central Act, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf and Pharmacy examination conducting authority conducting approved Pharmacy examination u/s 12 (2) of the Pharmacy Act 1948.
  - k) Examining Authority – means an Pharmacy examination conducting authority conducting approved Pharmacy examination u/s 12 (2) of the Pharmacy Act 1948.
- (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

#### **5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-**

- a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centers of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,
- b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

#### **6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-**

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,

- a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audiovisual or print or any other media, for admission of students to Pharmacy Course shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.
- b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

- c) Where an institution is affiliated to a University/Examining Authority and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university/Examining Authority shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.
- d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in **Annexure-I** to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.
- e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in **Annexure-II** to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.
- f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioral pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.

- g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in **Annexure-I and Annexure-II** to these Regulations respectively alongwith his/her application.
- h) Before the commencement of the academic session in institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students, parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.
- i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the Provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.
- k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.
- m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.
- n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.
- o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.
- p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

- a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.
- b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted to the institution in earlier years.
- c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.
- d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.
- e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration. (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.
- f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-incharge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.
- g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.
- h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

- i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.
- j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.
- k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.
- l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.
- m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.
- n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorized to do so.
- o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.
- p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.
- q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

- a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti- Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students

belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.

- b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.
- c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.
- d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.
- e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under Regulation 8.1.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

- f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.
- g) Every University/examining authority shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University/Examining Authority to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions.
- h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;

- a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.
- b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among all students residing in the hostel.
- c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.
- d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.
- e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.
- f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.
- g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.
- h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/ lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.
- i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.



- j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and mess, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.
- k) All Universities/Examining Authority awarding a degree/diploma at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to antiragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.
- l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and crosscheck whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.
- m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.
- n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.
- o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University or Examining Authority, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University/Examining Authority to which the pharmacy institution is affiliated to.

**7. Action to be taken by the Head of the institution.-** On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;
- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;
- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;
- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the Vice-Chancellor of the University or Examining Authority as the case may be.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 8 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

## **8. Punishments:-**

### **8.1 At the institution level:**

Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the Anti-Ragging Committee of the institution, the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:

8.1.1 Suspension from attending classes and academic privileges

8.1.2 Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits

8.1.3 Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process

8.1.4 Withholding results

- 8.1.5 Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- 8.1.6 Suspension/expulsion from the hostel
- 8.1.7 Cancellation of admission
- 8.1.8 Rustication from the institution for the period as decided
- 8.1.9 Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period
- 8.1.10 Fine ranging between Rupees 25,000/- and Rupees 1 lakh
- 8.1.11 Collective punishment: When the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

**8.2 At the university/examining authority level in respect of institutions affiliated to:-**

If an institution fails to comply with any of the provisions of these Regulations and fails to curb ragging effectively, the university/examining authority shall impose any one or any combination of the following penalties on it:

- 8.2.1 Withdrawal of affiliation and/or other privileges conferred on it
- 8.2.2 Prohibiting such institution from presenting any students then undergoing pharmacy course therein for the award of any degree/diploma of the university/examining authority
- 8.2.3 Withholding grants allocated to it by the university/examining authority, if any
- 8.2.4 Withholding any grants channelised through the university/examining authority to the institution, if any
- 8.2.5 Any other appropriate penalty within the powers of the university/ examining authority

**8.3 At the Management level:-**

The authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the Head.

**8.4 At the PCI level:-**

If an institution fails to curb ragging, the Pharmacy Council of India shall impose any one or any combination of the following penalties on it:

- 8.4.1 To initiate the action regarding withdrawal of approval against the institution under section 13 of the Pharmacy Act, 1948.
- 8.4.2 To reduce the admission capacity of the institution to the extent to which the Central Council deem fit.
- 8.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.
- 8.4.4 To stop renewal of approval.
- 8.4.5 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of PCI for information of all concerned.

#### 9. Submission of Reports to PCI:-

The each and every institution shall submit its reports in prescribed format (**Annexure-III**) to the Registrar-cum-Secretary, Pharmacy Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002, as per the following time schedule:-

- 9.1 by 31<sup>st</sup> October of every year in which admissions are made, indicating the action taken by institution for implementation of Regulation 6 of these Regulations failing which action referred to in Regulation 8.4 would be initiated against defaulting institution; and
- 9.2 by 30<sup>th</sup> April of every year in respect of the previous academic session, in the prescribed format (**Annexure-III**), indicating the requisite information against each column thereof, failing which action mentioned in Regulation 8.4 would be initiated against defaulting institution.

(**ARCHNA MUDGAL**)  
Registrar-cum-Secretary

**PHARMACY COUNCIL OF INDIA**  
Combined Councils' Building,  
Kotla Road, Aiwan-E-Ghalib Marg,  
Post Box No. 7020,  
NEW DELHI - 110 002

ANNEXURE-IUNDERTAKING BY THE CANDIDATE/STUDENT(Duly Attested by the Oath Commissioner)

1 I, \_\_\_\_\_ S/o.  
D/o. of Mr./Mrs./Ms. \_\_\_\_\_ have

carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the Central/State Government in this regard.

2 I have received a copy of the Pharmacy Council of India Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Pharmacy Colleges, 2012, and have carefully gone through it.

3. I hereby undertake that

- I will not indulge in any behaviour or act that may come under the definition of ragging,
- I will not participate in or abet or propagate ragging in any form,
- I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.

4. I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per the provisions of the PCI Regulations mentioned above and/or as per the law in force.

5. I hereby affirm that I have not been expelled or debarred from admission by any institution.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year

Signature

Name:

Address:

**ANNEXURE-II****UNDERTAKING BY THE PARENT/GUARDIAN****(Duly Attested by the Oath Commissioner)**

1. I, \_\_\_\_\_ F/o.  
M/o. G/o \_\_\_\_\_, have

carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the Central/State Government in this regard as well as the Pharmacy Council of India Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Pharmacy Colleges, 2012.

2. I assure you that my son/daughter/ward will not indulge in any act of ragging.

3. I hereby agree that if he/she is found guilty of any aspect of ragging, he/she may be punished as per the provisions of the PCI Regulations mentioned above and/or as per the law in force.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year

Name:

Address:

Signature

**ANNEXURE-III**

Proforma for monitoring the directions of Hon'ble Supreme Court of India on measures against Ragging in educational institutions.

S. No.	Name of the Institution and complete address and telephone nos.	
	Name of the Principal/Dean with their Direct contact nos.	
	<b>Action</b>	
1.	Whether Anti Ragging Squads were constituted?	Yes / No
2.	Whether Anti Ragging Committee were constituted?	Yes / No
3.	Whether prospectus mention possible actions against Ragging?	Give brief details (Copy of the Prospectus be enclosed)
4.	Whether names, telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized/made available to Freshers.	- Do -
5.	Whether students are allowed free access to phones (Cell & Landline) in hostel(s) for timely reporting.	- Do -
6.	Whether Seniors counselled.	- Do -
7.	Whether Freshers counselled.	- Do -
8.	Whether orientation courses for Freshers conducted.	- Do -
9.	Anti Ragging Squads	9(a) Date of formation 9(b) Name of Member and their contact nos. 9(c) No. of raids 9(d) Frequency of raids 9(e) Surprise raids 9(f) Other measures taken by the squad 9(g) No. of cases detected 9(h) Action taken as follow up
10.	Anti Ragging Committee	10(a) Date of formation 10(b) Name of Member and their contact nos. 10(c) No. of raids 10(d) Frequency of raids 10(e) Surprise raids 10(f) Other measures taken by the squad 10(g) No. of cases detected 10(h) Action taken as follow up

11.	Inquiry(ies) Conducted.		
12.	Punishment meted out.	12(a) Suspension 12(b) Rustication 12(c) Expulsion	
13.	No. of F.I.R.(s) lodged by Institution with details.		
14.	Whether Undertaking received from all the Students before the admission? (As per Annexure I, Part I)	Yes / No	
15.	Whether Undertaking received from all the Parent/Guardian before the admission? (As per Annexure I, Part II)	Yes / No	

Signature of Principal with Stamp

ARCHNA MUDGAL  
Registrar-cum-Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012